



# सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

## कोंकणी भाषा का सरल ज्ञान Easy Learning of Konkani Language

(हिन्दी Hindi - अँग्रेजी English - कोंकणी Konkani)

केन्द्रीय कार्यालय (राजभाषा विभाग) , मुम्बई

कोंकणी भाषा की वर्णमाला

Guttural: क ख ग घ ङ

ka kha ga gha ṅa

Palatal: च छ ज झ ञ

ca cha ja jha ṅa

Cerebral: ट ठ ड ढ ण

ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa

Dental: त थ द ध न

ta tha da dha na

Labial: प फ ब भ म

pa pha ba bha ma

Semi-Vowel: य र ल व

ya ra la va

Sibilant: श ष स

śa śa sa

Aspirate: ह

ha

## कोंकणी भाषा के स्वर

### Vowels and diphthongs

आ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ए	उ
a	ā	i	ī	u	ū	ṛ	ṝ	e	e
[ɐ]	[ɑ:]	[i]	[i:]	[u]	[u:]	[ɹ:]	[l]	[e]	[a
ऐ	ओ	ऑ	औ	अं	अः				
ai	ō	ō	au	aṅ	aḥ				
[a:i]	[o:]	[o:]	[a:u]	[ʌ]	[h]				

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

गिनती Counts

हिन्दी		अंग्रेजी		कोंकणी	
				कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि	
१	एक	1	ONE	१	एक / Yek
२	दो	2	TWO	२	दोन / Don
३	तीन	3	THREE	३	तीन / Teen
४	चार	4	FOUR	४	चार / Char
५	पांच	5	FIVE	५	पाच / Pach
६	छह	6	SIX	६	स / Sa
७	सात	7	SEVEN	७	सात / Sat
८	आठ	8	EIGHT	८	आठ / Aath
९	नौ	9	NINE	९	नव / Nav
१०	दस	10	TEN	१०	धा / Dha
११	ग्यारह	11	ELEVEN	११	इकरा (आकरा) / Ikrah (Akrah)
१२	बारह	12	TWELVE	१२	बारा / Bara
१३	तेरह	13	THIRTEEN	१३	तेरा / Tera
१४	चौदह	14	FOURTEEN	१४	चवदा / Chavda
१५	पंद्रह	15	FIFTEEN	१५	पंदरा / Pandra
१६	सोलह	16	SIXTEEN	१६	सोळा / Soula
१७	सत्रह	17	SEVENTEEN	१७	सतरा / Satra
१८	अठारह	18	EIGHTEEN	१८	अठरा / Autra
१९	उन्नीस	19	NINETEEN	१९	एकोणीस / Ekonis
२०	बीस	20	TWENTY	२०	वीस / Vees
२१	इक्कीस	21	TWENTY ONE	२१	एकवीस / Ekvees
२२	बाईस	22	TWENTY TWO	२२	बावीस / Bavees
२३	तेईस	23	TWENTY THREE	२३	तेवीस / Têvis
२४	चौबीस	24	TWENTY FOUR	२४	चोविस / Chovis
२५	पच्चीस	25	TWENTY FIVE	२५	पंचवीस / Panchvis
२६	छब्बीस	26	TWENTY SIX	२६	सोविस / Sôvis
२७	सत्ताईस	27	TWENTY SEVEN	२७	सत्ताविस / Sattavis
२८	अट्ठाईस	28	TWENTY EIGHT	२८	अट्ठावीस / Attavis
२९	उनतीस	29	TWENTY NINE	२९	एकांतीस / Ekontis
३०	तीस	30	THIRTY	३०	तीस / Tees
३१	इकत्तीस	31	THIRTY ONE	३१	इकतीस / Ektees
३२	बत्तीस	32	THIRTY TWO	३२	बत्तीस / Battis
३३	तैंतीस	33	THIRTY THREE	३३	तेत्तिस / Têttis
३४	चौंतीस	34	THIRTY FOUR	३४	चवतीस / Chavtis
३५	पैंतीस	35	THIRTY FIVE	३५	पस्तीस / Pastis
३६	छत्तीस	36	THIRTY SIX	३६	छत्तिस / Chhattis
३७	सैंतीस	37	THIRTY SEVEN	३७	सातीस / Satis
३८	अडतीस	38	THIRTY EIGHT	३८	आट्टीस / Attis

# सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

## गिनती Counts

हिन्दी		अंग्रेजी		कोंकणी	
				कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि	
३९	उनतालीस	39	THIRTY NINE	३९	ऐकूंचाळीस / Ekonchalis
४०	चालीस	40	FORTY		चाळीस / Chalis
४१	इकतालीस	41	FORTY ONE	४१	एकेचाळीस / Ekechalis
४२	बयालीस	42	FORTY TWO	४२	बावचाळीस / Bavechalis
४३	तैंतालीस	43	FORTY THREE	४३	त्रेचाळीस / Trechalis
४४	चवालीस	44	FORTY FOUR	४४	चौवेचाळीस / Chauvechalis
४५	पैंतालीस	45	FORTY FIVE	४५	पंचेचाळीस / Panchechalis
४६	छियालीस	46	FORTY SIX	४६	सहचाळीस / Sahechalis
४७	सैंतालीस	47	FORTY SEVEN	४७	सत्तेचाळीस / Sattechalis
४८	अडतालीस	48	FORTY EIGHT	४८	अटेचाळीस / Attechalis
४९	उनचास	49	FORTY NINE	४९	एकूणपन्नास / Ekunponnas
५०	पचास	50	FIFTY	५०	पोन्नास / Ponnas
५१	इक्यावन	51	FIFTY ONE	५१	एकावोंन / Ekavon
५२	बावन	52	FIFTY TWO	५२	भावोंन / Bhavon
५३	तिरपन	53	FIFTY THREE	५३	त्रेपोंन / Trepon
५४	चौवन	54	FIFTY FOUR	५४	चौपोंन / Choupon
५५	पचपन	55	FIFTY FIVE	५५	पंचावोंन / Panchavon
५६	छप्पन	56	FIFTY SIX	५६	चप्पोंन / Chappon
५७	सत्तावन	57	FIFTY SEVEN	५७	सत्तावोंन / Sattavon
५८	अट्टावन	58	FIFTY EIGHT	५८	अट्टावोंन / Atthavon
५९	उनसठ	59	FIFTY NINE	५९	एकूणसाट / Ekonsatt
६०	साठ	60	SIXTY	६०	साट / Satt
६१	इकसठ	61	SIXTY ONE	६१	एकसष्ट / Eksasht
६२	बासठ	62	SIXTY TWO	६२	बासष्ट / Basasht
६३	तिरसठ	63	SIXTY THREE	६३	त्रेसष्ट / Tresasht
६४	चौंसठ	64	SIXTY FOUR	६४	चौसष्ट / Chousasht
६५	पैसठ	65	SIXTY FIVE	६५	पासष्ट / Pasasht
६६	छियासठ	66	SIXTY SIX	६६	सेसष्ट / Sesasht
६७	सडसठ	67	SIXTY SEVEN	६७	सडसष्ट / Sadusasht
६८	अडसठ	68	SIXTY EIGHT	६८	अडसष्ट / Adusasht
६९	उनहत्तर	69	SIXTY NINE	६९	एकूणसत्तर / Ekonsattar
७०	सत्तर	70	SEVENTY	७०	सत्तर / Sattar
७१	इकहत्तर	71	SEVENTY ONE	७१	इकहत्तर / Ekahattar
७२	बहत्तर	72	SEVENTY TWO	७२	बहत्तर / Bahattar
७३	तिहत्तर	73	SEVENTY THREE	७३	त्रेहत्तर / Trehattar
७४	चौहत्तर	74	SEVENTY FOUR	७४	चौउधात्तर / Choudhattar
७५	पचहत्तर	75	SEVENTY FIVE	७५	पंचत्तर / Panchattar
७६	छिहत्तर	76	SEVENTY SIX	७६	शहत्तर / Shahattar

**सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning**  
**गिनती Counts**

हिन्दी		अंग्रेजी		कोंकणी	
				कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि	
७७	सतत्तर	77	SEVENTY SEVEN	७७	सत्यत्तर / Satyattar
७८	अठहत्तर	78	SEVENTY EIGHT	७८	अट्टत्तर / Attyattar
७९	उनासी	79	SEVENTY NINE	७९	ऐकोनेशिम / Ekonaishim
८०	अस्सी	80	EIGHTY	८०	ओइशिम / Aishim
८१	इक्यासी	81	EIGHTY ONE	८१	एकाइशिम / Ekaishim
८२	बयासी	82	EIGHTY TWO	८२	बैइशिम / Beaishim
८३	तिरासी	83	EIGHTY THREE	८३	त्रेईशिम / Treaishim
८४	चौरासी	84	EIGHTY FOUR	८४	चौदाईशिम / Choudaishim
८५	पचासी	85	EIGHTY FIVE	८५	पंचाईशिम / Panchaishim
८६	छियासी	86	EIGHTY SIX	८६	शेयइशिम / Sheaishim
८७	सतासी	87	EIGHTY SEVEN	८७	सत्यईशिम / Satyaishim
८८	अट्टासी	88	EIGHTY EIGHT	८८	अट्टइशिम / Attyaishim
८९	नवासी	89	EIGHTY NINE	८९	एकूणनोवद / Ekon'novad
९०	नब्बे	90	NINETY	९०	नोवद / Novod
९१	इक्यानबे	91	NINETY ONE	९१	इक्याणोव / Ekyan'nov
९२	बयानबे	92	NINETY TWO	९२	बयाँणोव / Beyan'nov
९३	तिरानबे	93	NINETY THREE	९३	त्रेयाँणोव / Treyan'nov
९४	चौरानबे	94	NINETY FOUR	९४	चौदाइणोव / Choudain'nov
९५	पिचानबे	95	NINETY FIVE	९५	पंचाणोव / Panchan'nov
९६	छियानबे	96	NINETY SIX	९६	शाणोव / Shan'nov
९७	सत्तानबे	97	NINETY SEVEN	९७	सत्त्याँणोव / Sattyan'nov
९८	अट्टानबे	98	NINETY EIGHT	९८	अट्टयाँणोव / Attyan'nov
९९	निन्यानबे	99	NINETY NINE	९९	नव्याणोव / Navean'nov
१००	एक सौ	100	One HUNDRED	१००	शंबर / Shembor

**बड़ी गिनतियाँ Big Counts**

हिन्दी		अंग्रेजी		कोंकणी	
				कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि	
१०००	एक हजार	1000	One Thousand	१०००	हजार / Hazar
१००००	दस हजार	10000	Ten Thousand	१००००	धा हजार / Dha Hazar
१०००००	एक लाख	1000000	One Lakh	१०००००	लाख / Lakh
१००००००	दस लाख	10000000	One Milion	१००००००	धा लाख / Dha Lakh
१०००००००	एक करोड़	100000000	One Crore	१०००००००	कृट्ट / Krutt
१००००००००	दस करोड़	10000000000	One Hundred Milion	१००००००००	धा कृट्ट / Dha Krutt
१०००००००००	एक अरब	100000000000	One Bilion	१०००००००००	अब्ज / Abja

# सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

## सर्वनाम Pronouns

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	यह	This	हो / Hoh
2	वह	He / She / That	तो / ती / तें (To/Ti/Tem)
3	वे	They	ते / Te
4	हम	We	आमी /Aami
5	वे सभी	Those all	तें सगलें / Te Saglem
6	ये	These	ये / Ye
7	मैं	I	हांव / Hanv
8	तुम	You	तूं / Tum
9	जो / कौन	Who	कोण / Kon
10	आप	You	तुमी / Tumi
11	कोई	Any	कोणूय / खंयचेंय (Konuy / Khaychey)
12	मुझे	Me	म्हाका / Mhaka
13	मेरा	My	म्हजें / म्हगेलें (Mhaje / Mhagele)
14	हमारा	Our	आमचे / आमचो / आमची / आमचें / आमचीं (Aamche/Aamcho/Aamchi/Amchim)
15	आपको	To You	तुमका / Tumka
16	इन्हें	To these	तमका / Tanka
17	उन्हें	To them	तमका / Tamka
18	इसने	it	तो / ती / तें (To/Ti/Tem)
19	उसने	He	तो / To
20	उसे	To him / Her	ताका / तिका (Taka / Tika)
21	वैसा	like that	तसले (Tasle)
22	जिसकी	whose	कोणाचें / जांचें (Konache / Jyanche)
23	उसकी	Her	तिका / Tika
24	जिसने	Whosoever	कोणूय / konuy
25	उन्होंने	They	ताणीम / Tanim
26	उसका	His	ताचे / Tache

**सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning**  
विशेषण Adjective

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	उत्साही	Enthusiastic	उमेदी / Umedi
2	खुश	Happy	खोशी / सुखी ( Khoshi / Sukhi)
3	युवा	Young	तरुण / Tarun
4	तेज	Fast	त्वरीत / Tvarit
5	शांत	Quiet	शांत / Shant
6	पूरा	complete	पुराय / Puray
7	नरम	Soft	फुसफुशीत / Fushushit
8	नया	New	नवीन / Navin
9	महंगा	Expensive	म्हारग / Mharag
10	गीला	Wet	ओलें / Olem
11	सूखा	Dry	सुकें / Sukem
12	कठिन	Difficult	कठीण / Katin
13	रंगीन	Colourful	रंगयिल्लें / Rangayillem
14	साफ	Clean	नितळ / Nital
15	मीठा	Sweet	गोड / god
16	पतला	Thin	बारीक / Barik
17	मोटा	Fat	मोटें / Motem
18	विशेष	Special	खास / Khas
19	गहरा	Deep	गर्क / Gark
20	अच्छा	Good	बरें / Barem
21	बडा	Big	व्हडलें / Vholle
22	बहुत	Many	खूब / Khoob
23	भारी	Heavy	जड / Jad
24	खट्टा	Sour	आंबट / Ambat
25	आलसी	Lazy	आळशी / Aalsi
26	सुंदर	Beautiful	सुंदर / Sundar
27	खुश	Happy	खोशी / Khoshi
28	तेज	Fast	त्वरीत / Tvarit



सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

विशेषण. Adjective

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	शांत	Quiet	शांत / Shant
2	पूरा	complete	पूर्ण / Purn
3	कडा	Hard	घट / Gat
4	नरम	Soft	फुसफुशीत / Fushushit
5	नया	New	नवीन / Navin
6	महंगा	Expensive	म्हारग / Mharag
7	सस्ता	Cheap	सवाय / Savay
8	गीला	Wet	ओलें / Olem
9	सूखा	Dry	सुकें / Sukem
10	कठिन	Difficult	कठीण / katin
11	रंगीन	Colourful	रंगयिल्लें / Rangayillem
12	साफ	Clean	नितळ / Nital
13	मीठा	Sweat	गोड / god
14	पतला	Thin	बारीक / Barik
15	मोटा	Fat	मोटें / Motem
16	विशेष	Special	खास / Khas
17	गहरा	Deep	गर्क / Gark
18	अच्छा	Good	बरें / Barem
19	बडा	Big	व्हडलें / Vhallem
20	बहुत	Many	खूब / Khoob
21	पुराना	Old	जुनें / junem
22	भारी	Heavy	जड / Jad
23	खट्टा	Sour	आंबट / Ambat
24	बहुत	Many	खूब / Khoob
25	सुंदर	Beautiful	सुंदर / Sundar

शारीरिक क्रियाएं Bodily Functions

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	मुस्कुराना	Smiling	हांशें / Hashem
2	श्वसन क्रिया	Respiration	स्वास / Swas
3	पाचन क्रिया	Digestion	जिरवण / jirvan
4	रक्त संचरण	Blood Circulation	रगत चाल / Ragat Chal
5	अवशोषण क्रिया	Absorption	शोशण / Shoshan
6	संचरण	Movement	संचलन / Sanchalan
7	सोचना	Thinking	चितप / Chitap
8	सोना	Sleeping	न्हिदप / Nhidap
9	सुनना	Hearing	आयकण / Ayikan
10	बोलना	Speaking	उलोवप / Ulovap
11	अनुक्रिया	Responsiveness	प्रतियोगी / Pratiyogi
12	रोना	Weeping	रडप / Radap
13	चबाना	Chewing	रंवध करप / ranvadh karapa
14	स्पर्श करना	Touching	स्पर्श करप / Sparsh Karap
15	निगलना	Swallowing	गिळप / Gilop
16	देखना	Seeing	पळोवप / Polovap
17	पकड़ना	Holding	धारण / Dharana
18	दौड़ना	Running	धांवप / Dhanvap
19	रेंगना	Crawling	सरकटत वचप / Sarkatat Vachap
20	उठना	Stand up	उबें रावप / Ube Ravap
21	जागना	Wake up	जागप / Jagap
22	बैठना	Sitting	बसप / basap
23	करवट	Side	बाजू / Baju
24	सिर हिलाना	Nutate / Nid nod	मान हालोवप / Man halavap
25	सूंघना	Sniff	हुंगप / Hungap
26	झपकी लेना	Napping	झेम / Jhem

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

फल FRUITs

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	केला	Banana	केळें / Kele
2	संतरा	Orange	संत्र / Santr
3	लीची	Litchi	लिची / Litchi
4	अंगूर	Grapes	द्राक्ष / Draksha
5	अमरूद	Guava	पेर / Per
6	अनार	Pomegranate	दाळीम/ Dalim
7	शरीफा / सीताफल	Custurd apple	सिताफळ / Sitafal
8	सेब	Apple	आपोल / Aapol
9	अनानास	Pineapple	अणस / Anas
10	पपीता	Papaya	पोपाय / Popay
11	मौसमी	Grape fruit	तोरिंग / Toring
12	आडू	Peach	सप्ताळू / Saptalu
13	कटहल	Jack fruit	पणस / Panas
14	शहतूत	Mullberry	तुतीचें फळ / Tutichem Fal
15	स्ट्राबेरी	Strawberry	स्ट्रॉबॅरी/ Strawberry
16	चीकू	Chickoo	चिकू / Chickoo
17	आम	Mango	आंबो / Ambo
18	खरबूजा	Melon	चिबूड / Chibud
19	तरबूजा	Water Melon	काळिंग / kaling
20	खजूर	DatePalm	खाजूर / Khajoor
21	जामुन	Java Palm	जांबुळ / Jambul

सब्जियां Vegetables

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	चुकंदर	Beetroot	बीट / Beet
2	करेला	Bitter gourd	कारार्थें / Karatem
3	टमाटर	TOMATO	टमाट / Tamat
4	फूलगोबी	Cauliflower	फुलकोबी / Phulkobi
5	प्याज	onion	कांदो / Kando
6	बैंगन	Brinjal	वांयगें / Vaingem
7	हरीमटर	Greenpeas	मटर / Matar
8	सलगम	Turnip	गड्डो / Gaddo
9	गाजर	carrot	गाजर/ Gajar
10	आलू	potato	बटाट / Batat
11	सेमफली	Beans	मोगी / Mogi
12	लोकी	Bottle guard	कोंकणदुदी / Kokan dudi
13	पत्तागोबी	cabbage	कोबी / Kobi
14	भिन्डी	Ladies finger	भेंडो / Bheno
15	कदडू	pumpkin	दुदी / Dudi
16	मूली	radish	मुळो / Mulo
17	पालक	spinach	पालक / Palak
18	लहसुन	gralic	लसूण / Lasoon
19	तोरई	Ridyegaurd	दोडकी / Dodki
20	खुम्ब	Mashroom	अळमें / Alme
21	अरबी	Colocasia	आळु / Alu
22	शिमला मिर्च	Capsicum	शिमला मिरसांग / Shimla Mirsang
23	टिंडा	Tinda	टेन्डली / Tendli
24	हरा धनिया	Coriander Leaves	कोथमीर / Kothmir
25	नींबू	lemon	लिंबू / Limboo
26	हरी मिर्च	Green Chilli	ओली मिरसांग / Oli Mirsang

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

अन्न / दलहन Foodgrains/Pulses

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	गेहूं	WHEAT	गंव / Ganv
2	चावल /धान	RICE	तांदूळ / Tandool
3	मक्का	MAIZE	मको / Mako
4	बाजरा	MILLET	बाजरी / Bajri
5	ज्वार	SORGHUM	गवती धान्य / Gavati Dhanya
6	जौ	BARLY	बार्ली / Barly
7	चना	BLACK GRAM	काळे चणे / Kale Chane
8	साबूदाना	SAGO	साबुदानो / Sabudane
9	जई	OATS	ओट / Oat
10	रागी	RAGI	नाचणे / Nachane
11	कुटकी	LITTLE MILLET	कोद्रा / Kodra
12	कुट्टू	BUCKWHEAT	कुट्टू / Kutt
13	समा चावल	BARNYARD MILLET	वराई / Varai
14	सेला चावल	PARBOILD RICE	उकडें तांदूळ / Ukde Tandool
15	भूरा चावल	BROWN RICE	उकडें तांदूळ / Ukde Tandool
16	दलिया	BROKEN WHEAT	कण्याचें / Kanyache
17	पोहा/चेवडा	RICE FLAKES	पोवू / Phovu
18	मुरमुरा	RICE PUFFED	चिरमुल्यो / Chirmulyo
19	सूजी रवा	SEMOLINA	सुजी / Sooji
20	मसूर	RED LENTIL	मसूर / Masoor
21	काबुली चना	Chickpea	हरभरे/ Harbhare
22	अरहर	PIGEON PEA	तूरडाळ / Toordal
23	मूंग	GREEN Pulse	मूंग / Moong
24	मटर	Pea	वाटाणो / Vatano
25	काली उडद	BLACK GRAM	काळे वाटाणे / Kale Vatano
26	कुलथी की दाल	HORSE GRAM	कुलिथु / Kulithu
27	लोबिया	COWPEA	चवळी / Chavali
28	राजमा	KIDNEY BEANS	हळसांदो / Halsando

तेल Oils

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	सरसों का तेल	MUSTARD OIL	सासवांचें तेल / Sasva tel
2	मूंगफली का तेल	PEANUT OIL	शेंगदाणेचें तेल / shengdanechem tel
3	सूरजमुखी का तेल	Sunflower OIL	सूर्यफूलचें तेल / Suryafoolchem tel
4	जैतून का तेल	Olive OIL	ओलिवाचें तेल / Olivachem tel
5	सोयाबीन का तेल	Soyabean OIL	सोयाबीनचें तेल / Soyabeanchem tel
6	नारियल का तेल	COCONUT OIL	खोबरेल तेल/ Khobrel tel
7	तिल का तेल	SESAME OIL	तिळाचें तेल / Tilachem tel
8	अरंडी का तेल	CASTOR OIL	एरंडेल तेल / Erandel tel
9	अलसी का तेल	EIAX SEED OIL	सनीबियाचें तेल / Aanibiyachem tel
10	मक्का का तेल	CORN OIL	मॅकक्याचें तेल / Makkyachem tel
11	लौंग का तेल	CLOVE OIL	लवंगाचें तेल / Lanvangachel tel
12	नीम तेल	MARGOSA OIL	कोडूबेवा तेल / Kodubeva tel
13	कपूर का तेल	CAMPHOR OIL	कर्पूर तैल / Karpor tail
14	कुसुम तेल	SAFFIOWER OIL	करडई तेल / Kardai tel
15	चावल की भूसी का तेल	RICE BRAN OIL	तांदूळ कोंडा तेल / Tandool Konda tel
16	तुलसी का तेल	BASIL OIL	तुळस तैल / Tulas tail
17	बादाम का तेल	ALMOND OIL	बदामाचें तेल / Badamache tel
18	गुलाब का तेल	ROSE OIL	गुलाबाचें तेल / Gulabachem tel
19	चंदन का तेल	SANDALWOOD OIL	गांधा तेल / Gandha tel

मसाले Spices

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	रतन जोत	Dyers Alkanet	मोगली एरंड / Mogli Erand
2	जावित्री	Mace	जावित्री / Javitri
3	हल्दी चूर्ण	Turmeric Powder	हळद पीटो / Hald pito
4	जीरा	Cumin	जिरें / Jeerem
5	अजवायन	Oregano	ओवो / ovo
6	हींग	Asafoetida	हींग / Hing
7	मुलेठी	Liquorice	ज्येश्ठमध / Jyeshtamadh
8	गोंद	Frankincense	डिंक / Dink
9	खसखस	Poppy Seeds	खसखस / Khaskhas
10	नमक	Salt	मीठ / Meett
11	सेंधा नमक	Rock Salt	पादेलोण / Padelon
12	काला नमक	Black Salt	काळें मीठ / Kale Meett
13	काली मिर्च	Black Pepar	काळीं मिरयां / Kali miriyam
14	लाल मिर्च	Red Chilli	तांबडी मिरसांग / Tambdi Mirsang
15	पीपल	Long Pepper	पिंपळी / Pimpali
16	केसर	Saffron	केशर / Kesar
17	अमचूर	Mango Powder	अमबेचो पीटो / Ambeacho Pito
18	राई	Mustard Seeds	सासवां / Sasvam
19	सौंठ	Dry Ginger	सूंठ / Sunth
20	लहसुन	Garlic	लसूण / Lasoon
21	अदरक	Ginger	आलें / Alem
22	मेंथी	Fenugreek	मेथी / Methi
23	दालचीनी	Cinnamon	तिखी / Tikhi

मेवा Dryfruits

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	अखरोट	Walnut	अक्रोड / Akrod
2	बादाम	Almond	बदाम / Badam
3	काजू	Cashew Nut	काजू बी / Kaju Bi
4	पिस्ता	Pistachio	पिस्ता / Pista
5	किशमिश	Raisins	खिसमीस / Khismis
6	अंजीर	Fig	अंजीर / Anjeer
7	मखाना	Fox nuts / Lotusseedsop	फूल मखाना / Phool Makhana
8	चिरौंजी	Cudpahunut/ Pistachio soft	चारोळी / Charoli
9	मुनक्का	DryGrapes/ Raisins	मनुका / Manuka
10	सूखा नारियल/खोपरा	Desiccated Coconut	खोबरें / Khobrem
11	खजूर	Dates	खाजूर / Khajoor
12	छुहारे	Dry Dates	खारीक / Kharik
13	खुबानी	Apricot	जरदाळू / jardaloo
14	नीलबदरी	Blueberry	निळी बॅरी / Nili beri
15	शाहबलूत	Chestnut	चॅस्टनट फळ / Chestnut fal
16	चिलगोजा	PineNuts	चिलगोजा / Chilgoja



रसोई के सामान Kitchen wares

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	टोकरी	Basket	पांटलो / Patlo
2	डिब्बा	Box / Container	डबो / dabbo
3	चिमनी	Chimney	धुंवरारें / Dhuvarade
4	मथनी	Churner	ताक चाळपाचें आयदन / Tak Chalpache Aydan
5	चूल्हा	Stove	चूल / Chool
6	मर्तबान	Jar	लांब गळ्याचें आयदन / Lamb Galyacho Aydhan
7	वरतन / बर्तन	Utensils	आयदन / Aydhan
8	सरौता	Nut cracker	आडकित्तो / Aadkitto
9	तन्दूर	Oven	भाटी / Bhaati
10	कड़ाही	pan	तवो / Tavo
11	चकला	Pastry-board	लाट्टोणि / Lattony
12	मूसल	Pestle	मुसळ / Musal
13	सँडसी (चिमटी)	Pincers	चिमटो / Chimto
14	थाली	Plate / Dish	ताट / That
15	बेलन	Rolling pin	लाटणी / Latani
16	तश्तरी	Saucer	बशी / Bashi
17	चलनी, छलनी	Sieve	चाळणी / Chalani
18	चम्मच, चमचा	Spoon	चमचो / Chamcho
19	जल शोधक यंत्र	water purifier	वॉटर प्यूरिफायर / Water Purifier
20	चिमटा	Tong	पक्कड / Pakkad
21	बोतल	Bottle	बाटली / Batali
22	कटोरा	Bowl	वाटी / Vati
23	लोटा	Bowl	पेलो / Pelo
24	कांटा	Fork	गार्फ / Garf
25	प्याला	Cup	पेलो / Pelo

घर के सामान Household Items

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	घड़ी	Clock	घड्याळ / Ghadyal
2	संगणक	computer	संगणक / Sangnak
3	पंखा	fan	पंखो / Pankho
4	इस्त्री, प्रेस	Iron	इस्त्री / Istri
5	कुंजी, चाभी	Key	चावी / Chavi
6	सलाई	Knitting needle	विणप सूय / Vinop sui
7	चिराग	Lamp	दिवो / Divo
8	चटाई	Mat	शेंदरी / Shendri
9	दर्पण, आईना	Mirror	हारसो / Harzo
10	सुई	Needle	सूय / Sui
11	थैला	Sack	पोती / Poti
12	सिलाई मशीन	sewing machine	शिवपाचें माक्र / Sivpache Makn
13	चादर	Sheet	चादर / Chadar
14	साबुनदानी	Soap-case	साबणाची पेटी / Sabanachi peti
15	सुखाने वाला	Spin Dryer	कपडे ड्रायर / Kapde dryer
16	झूला	Swing	झोंपाळो / Zhopalo
17	छाता, छतरी	Umbrella	सत्री / Satri
18	तराजू	Balance	तागडी / Tagdi
19	खिडकी	window	जनेल / Janel
20	कंघी	Comb	फणी / Fani
21	दन्त मंजन	Toothpowder	दंतमंजन / Dantamanjan
22	तोलिया	Towel	तुवालो / Tuvalo
23	झाड़ू	Broom	सारण / Saaran
24	बोतल	Bottle	बाटली / Batli
25	बाल्टी	Bucket	बालदी / Baldi
26	बटन	Button	बुतांव / Butau
27	कंबल	Blanket	कांबळ / Kambal
28	पायदान	Door-mat	पांयपुसणें / Paipusane

फर्नीचर Furniture.

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	अलमारी	Almirah/ Cupboard	कपाट / Kapat
2	पलंग / बिस्तर	Bed	खाट / Khat
3	कालीन	Carpet	जमखण / Jamkhan
4	कुर्सी	Chair	कदेल / Kadel
5	चारपाई,खाट	Cot	खाट / Khat
6	मेज़	Desk / Table	मेज / Mej
7	खाने की मेज	dining table	जेवणाचे मेज / Jevanache mej
8	डबल बेड	Double Bed	दोद्री खाट / Dotti Khat
9	श्रृंगार पटल	Dressing Table	आरसा असलेले मेज / Arsa aslele Mej
10	फाइलें रखने की अलमारी	Filing Cabinet	फाइल दवारपाची कपाट / File davarpachi kapat
11	रसोई अलमारियाँ	kitchen cabinets	रांदची कूडची कपाट / Randhchi kudchi kapat
12	चटाई	Mat	शेंदरी / Shendri
13	गद्दा	Mattress	गादी / Gaadi
14	दर्पण,आईना	Mirror	हारसो / Harzo
15	तकिया	Pillow / Cushion	उशें / Ushem
16	तकिये का आवरण	Pillow-cover	उशें धांपणें / Ushem dhaknem
17	तिजोरी	Safe	तिजोरी / Tijori
18	चादर	Sheet	चादर / Chadar
19	सोफ़ा	Sofa	सोफ़ा / Sofa
20	सोफ़ा बेड	Sofa-Bed	सोफ़ा बेड / Soafa bed
21	स्टूल	Stool	स्टूल / Stool
22	झूला	Swing	झोंपाळो / Zhopalo
23	वस्त्र टांगने की अलमारी	Wardrobe	मुस्तायकी दवारपाची कपाट / Mustayki davarpachi Kapat
24	बिस्तर	bed	बिशाणें / Bishanem
25	पर्दे	Curtains	पड्डो / Paddo
26	किताबों की अलमारी	Bookcase	पुस्तकांचें कपाट / Pustakache kapat

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

ऋतुएँ Seasons

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	बंसत	Spring	वसंत ऋतू / Vasant rutu
2	ग्रीष्म	Summer	ग्रीष्म / Greeshm
3	वर्षा	Rainy	पावसाळो / Pavsallo
4	शरद	Winter	हेमंत ऋतू / Hemant rutu
5	हेमंत	Frost	शियाळो / Shiyalo
6	शिशिर	Autumn	शरद ऋतू / Sharad rutu
7	बारिस	Rain	वर्षा / Varsha
8	वर्फ	Snow	झेल / Jhel
9	बादल	Cloud	ढग / Dag
10	कुहासा	Fog	धुकें / Dhukem
11	बाढ	Flood	पूर / Pur
12	सूखा	Drought	सुको दुश्काळ / Suko Dushkal
13	मानसून	Monsoon	मॉन्सून / Monsun
14	ऋतुएं	Seasons	रूतू / rutu
15	शुष्क	Dryness	सुकें / sukem
16	आर्द्रता	Humidity	वलसाण / Valsan
17	नमी	Moisture	शेळ / Shel
18	सूर्योदय	Sunrise	सूर्योदय / Suryoday
19	सूर्यास्त	Sunset	सूर्यास्त / Suryast
20	चक्रवात	Cyclone	वादळ / Vaadal
21	बिजली	Lighting	विज / vij
22	तूफान	Storm	तूफान / Toofan
23	बूँदाबांदी/ फुहार	Dazzle	दीप कावप / Dip kavap
24	बर्फबारी	Snowfall	झेल पडप / Jhel padap
25	ओलावृष्टि	Hail	बर्फाच्या खड्यांचो पावस / Barfachya khadyacho pavas
26	पतझड	Fall	झडप / Zhadap
27	आंधी तूफान	Thunder storm	गडगडो सयत वादळ / Gadgado sayat Vadal

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

वेषभूषा/ परिधान Dresses

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	जीन्स	Jeans	जीन्स / jeans
2	दुपट्टे	Scarf	गळपट्टा / Galpatta
3	घाघरा	Skirt	घाघरो / Ghaghro
4	साड़ी	Saree	साड़ी / Saree
5	टोपी	Cap /Hat	टोपी / Topi
6	पतलून / पैंट	Trousers / Pant	पैंट / Pant
7	निकर	Half - Pant	अर्धी पैंट / Ardi pant
8	पगड़ी, साफा	Turban	पगड़ी / Pagdi
9	फ्रॉक	Frock	फ्रॉक / Frock
10	लहंगा	LongSkirt	लांब घाघरो / Lamb Ghaghro
11	स्वेटर	Pullover /Sweater	आंगलें / Aangle
12	धोती	Dhoti	धोती / Dhoti
13	जर्सी	Jersey	जर्सी / Jersey
14	टीशर्ट	T-shirt	बुषकोट / bushkot
15	बनयान	Vest	बनयान / Banyan
16	कोट	Coat	कल्ल / Kall
17	कच्छ्रा	Knickers	पाइमोजो / Paimojo
18	ब्लाउज	Blouse	पोलको / polko
19	ट्रैकसूट	Tracksuit	ट्रैकसूट / Tracksuit
20	बरसाती	Raincoat	पावसाचें आंगलें / Pavsachem Anglem
21	टाई	Tie	ग्रावात / Gravat
22	नाइटी	Nighty	नाइटी / Nighty
23	लुंगी	Lungi	लुंगी / Lungi
24	कमीज़	Shirt	बुषट / bushat
25	पाजामा	Pyjama	पयजामा / Paijama

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

पालतू पशु Pet animals.

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	गाय	COW	गाय / gai
2	बैल	OX	बैल / Bail
3	भैंस	BUFFALO	म्हस / Mhas
4	कुत्ता	DOG	कुत्रो / Kutro
5	बिल्ली	CAT	माजर / majar
6	ऊंट	CAMEL	ऊंट / Unt
7	घोड़ा	HORSE	घोडो / Ghodo
8	बकरी	GOAT	बकरी / Bakri
9	बन्दर / वानर	MONKEY /Ape	माकड / Makad
10	लंगूर	LAP	खेतो / Kheto
11	हाथी	ELEPHANT	हत्ती / Hatti
12	खच्चर	MULE	खेचर / Khechar
13	सुअर	PIG	डुकर / Dukar
14	भेड़	SHEEP	बोकड / Bokad
15	भेड़	EWE	मेंडर / Mendar
16	गधा	ASS / Donkey	गाडव / Gadav
17	टट्टू	PONY	ल्हान घोडो
18	भेड़	RAM	बोकड / Bokad
19	गिलहरी	SQUIRREL	चानी / Chani

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

जंगली पशु Wild animals

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	भालू	BEAR	अस्वल / Asval
2	गैंडा	RHINOCEROS	गेंडो / Gendo
3	सांड	BULL	बैल / Bail
4	हाथी	ELEPHANT	हत्ती / Hatti
5	लोमड़ी	FOX	कोलो / Kolo
6	लकड़बग्घा	HYENA	कोलसुने / Kolsune
7	सुअर	PIG	डुकर / Dukar
8	खरगोश	RABBIT	ससो / Saso
9	वाघ	TIGER	वाघ / Vagh
10	जेबरा	ZEBRA	पटे आशिल्लो घोडो / Pate ashillo ghodo
11	भेड़िया	WOLF	लांडगो / Landgo
12	बारहसिंगा	STAGE	मंच / Manch
13	तेंदुआ	PANTHER	बिबटो वाग / Bibto Vagh
14	हिरन	DEER	हरण / Haran
15	नेवला	MONGOOSE	मुंगूस/ Mungus
16	सिंह / शेर	LION	शींव / Shimv
17	तेंदुआ	LEOPARD	बिबटो / Bibto
18	सियार	JACKAL	कोलो / Kolo
19	कंगारू	KANGAROO	कांगारू / Kangaru
20	जिराफ	GIRAFFE	जिराफ / Jiraf
21	चिम्पेंजी	CHIMPANZEE	चिपांझी / Chipanjhi
22	साही	PORCUPINE	साळ / Sal
23	जंगली सुअर	BOAR	रानदुकर / Randukar
24	जंगली भेंसा	BISON	गवोरेडो / Gavoredo

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

फूल / पौधे / वृक्ष के नाम Flowers / Plants / Trees

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	तुलसी	TULSI, BASIL	तुळस / Tulas
2	नीम	NEEM	कडुलिम / Kadulim
3	रूद्राक्ष	ELAEOCARPUS	रूद्राक्ष / Rudraksh
4	घृतकुमारी, ऐलोवेरा	ALOE-VERA	काटेकोर / katekor
5	गुडहल	HIBISCUS PLANT	जास्वन / Jaswan
6	धनिया	CORRIANDER	कोथमिर /Kothmir
7	पुदीना	MINT, MENTHA	पुदीना / Pudina
8	कढी पत्ता / मीठा नीम	CURRY PLANT	करविल / Karvil
9	सूरजमुखी	SUNFLOWER	सूर्यफुल / Suryaful
10	सदाबहार	EVERGREEN	सद्दा / Sadda
11	गुलाब	ROSE	गुलाब / gulab
12	चमेली	JASMINE	चमेली / Chameli
13	कमल	LOTUS	कमळ / Kamal
14	गेंदा	Mari gold	रोजा / Roza
15	सेवंती / गुलदावरी	CHRYSANTHEMUM	शेवती / shevti
16	चंपा	MAGNOLIA	चाफो / chafo
17	मोगरा	JASMINE SAMBAC	मोगरो / Mogro
18	जूही	SWEET JASMINE	मोगरो / Mogro
19	बेला	ARABIAN JASMINE	मोगरो / Mogro
20	कनेर	OLEANDER	काणेर / kaner
21	कुमुदिनी	LILY FLOWER	भूंयकमळ / Bhuikamal
22	चांदनी	CRAPE JASMINE	अनंता / Ananta
23	अपराजिता	Butterfly pea	शंख पुष्प / Shankha Pushpa
24	बबूल	Acacia	बाभळ / Bafal
25	चन्दन	Sandal	चंदन / Chandan
26	शीशम	Rosewood	अशोक / Ashok
27	बरगद	Banyan	वड /Vod
28	पीपल	Ficus religiosa	पिपळ / Pipal



यात्रा संबंधी शब्द Travel words

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	यात्रा	Travel / Tour	भोवप / Bhovop
2	पर्यटन	Tourism	पर्यटन / paryatan
3	खरीदारी	Shopping	खरेदी / Kharedi
4	हवाई जहाज	Airopplane	विमान / viman
5	बस	Bus	बस / Bus
6	रेल	Railway	आगगाडी / aaggadi
7	जलयान/पानी का जहाज	Ship	जहाज Jahaj
8	टिकट	Ticket	तिकेट / ticket
9	सामान	Luggage	सामान / Saman
10	कुली	Coolie	सामान उचलपी / Saman Uchalpi
11	पर्यटक	Tourist	भोंवडेकार / bhovandekar
12	जगह, स्थान	Places	जागो / Jaago
13	ऐतिहासिक स्थान	HistoricalPlaces	इतिहासीक जागो / Itihasik Jaago
14	आरक्षण	Booking	नोंदवणी / nondvani
15	दर्शनीय स्थल	SightSeeing	मनभुलयण्यो सुवातो पळोवप / mannbhulaynyo suvato palovap
16	यात्री, पर्यटक	Traveler	भोंवडेकार / bhovandekar
17	पर्वत	Mountain	डोंगर / dongar
18	बगीचा, उद्यान	Garden / Park	बाग / baag
19	जंगल	Jungle	रान / raan
20	समुद्रतट	SeaShore	दर्यादेग / daryadeg
21	विदेश यात्रा	ForeignTour	विदेश भोवोप / videsh bhovop
22	चालक	Driver	चालक / Chalak
23	दुभाषी	Interpreter	दुभाषी / Dubhashi
24	मार्गदर्शक	Guide	वाट दाखोवपी / vaat dakhavpi
25	आगमन	Arrival	एवप / Yevap
26	प्रस्थान	Departure	वचप / vachap
27	गंतव्य (स्थान)	Destination	पावपाची सुवात/ pavpachi suvaat

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

यात्रा संबंधी शब्द Travel words

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	प्रथम वर्ग	FirstClass	पयलो वर्ग / pailo varg
2	द्वितीय वर्ग	SecondClass	दूसरो वर्ग / dusro varg
3	जलपान गृह	Canteen	खानावळ / khanaval
4	सूर्यास्त की जगह	SunSetPoint	सुरयासतचो जागो / Suryastacho jago
5	सूर्योदय की जगह	SunRisePoint	सुरयोदयचो जागो / suryodayacho jaago
6	रसोई भंडार	Pantry	कोठये कूड / kothye kud
7	पंखी अभयारण्य	BirdSanctuary	पक्षी अभयारण्य / pakshi abhayaranya
8	वॉटर पार्क	WaterPark	पाणी बाग / paani baag
9	प्रतीक्षालय	WaitingRoom	प्रतीक्षा कुड / pratiksha kud
10	प्रथमोपचार	FirstAid	तांतडीचो उपाय / taatdicho upaay
11	प्रतीक्षा सूची	WaitingList	प्रतीक्षा यादी/ pratiksha yaadi
12	घड़ी	Watch	घड्याळ / ghadyaal
13	घोषणा	Announcement	घोशणा Ghoshna
14	विश्राम गृह	HolidayHome	सुटयेचे घर / sutyechе ghar
15	प्रवेश पत्र	EntryPass	प्रवेशपत्र / Praveshapatr
16	प्रवेश-द्वार	Entrance	भीतर सरपाची वाट / bhitar sarpachi vaat
17	अभयारण्य	Sanctuary	अभयारण्य / abhayaranya
18	नाश्ता	Snack	अल्पाहार / alpahar
19	शुद्ध हवा	FreshAir	ताजो वारो / taajo varo
20	प्राकृतिक सुंदरता	NaturalScenery	निसर्गीक सैमीक चित्र / naisargik saimik chitra

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

रंग Colours

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	नीला	Blue	निळो / nilo
2	लाल	Red	तामडो / Tamado
3	जामुनी/गहरा बैंगनी	Purple	जमाळो / Jamalo
4	पीला	Yellow	हळडुळो / haldulo
5	गुलाबी	Pink	गुलाबी / Gulabi
6	हरा	Green	पाचवो - pachvo
7	नारंगी	Orange	नारंगी / Narangi
8	सफेद	White	धवो / dhavo
9	काला	Black	काळो / kalo
10	मटमैला	Grey	गोबरी / gobri
11	भूरा	Brown	तपकिरी / tapkiri
12	नील रंग	Indigo	निळो / nilo
13	मैरून	Maroon	पिंगसो / pingso
14	गहरा नीला	Navy Blue	निळो / nilo
15	सरसों रंग	Mustard	हळडुळो / haldulo
16	हल्का पीला	Light Yellow	हळडुळो / haldulo
17	जैतून का रंग	Olive	हिरवो / hirvo
18	बैंगनी	Violet	जमाळो / Jamalo
19	फ़िरोजा	Turquoise	निळो / nilo
20	मूंगा रंग	Coral	पोंवळें / povle
21	नीला हरा	Teal	निळो / nilo
22	भूरा पीला रंग	Amber	हळडुळो / haldulo
23	सुनहरा	Golden	सोनेरी / soneri
24	चांदी जैसा रंग	Silver	चंदेरी / chanderi
25	धूमिल सफेद	Off White	धवो / dhavo
26	धातुमय रंग	Metallic	धातूमय / dhaatumay

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

आभूषण Ornaments

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	चूड़ी	Bangle	काकणा / Kakana
2	अंगूठी	Ring	मुदी / Mudi
3	कंगन	Bracelet	कडे / kade
4	कर्णफूल	Ear ring	कानातली / kaanatli
5	नाक की बाली/लौंग	Nose pin	नाकातली / Naakatli
6	हार	Necklaces	हार / Har
7	पायल	Anklet	पायातली / payatli
8	बाजूबंद	Armlet	बाजूबंद / Bajuband
9	अंगूठे का छल्ला	Toe rings	जोडवी / Jodvi
10	कमरबंध	Waist let	कमरपट्टो / kamarpatto
11	बालों का कांटा	Hairpin	लीक / Lik
12	मांग टीका	Head Locket	भांगतीळो / bhaangtilo
13	लोलक	Pendent	लोंबकळपी / Lombaklapi
14	कांटा (साड़ी का)	Brooch	वस्त्राक लावपाचो अलंकार / vastrak lavpacho alankar
15	मुकुट	Tiara / Crown	मुकूट / Mukut

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

खेल Sports

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	बेडमिंटन	Badminton	बेडमिंटन / Badminton
2	मुक्केबाजी	Boxing	मुठींनी मारपाचो खेल / muthini marpacho khel
3	फुटबाल	Football	फुटबॉल / Futbol
4	तैराकी	Swimming	पेवप / pevap
5	भाला फेंक	Javelin throw	भालों फेक / bhaalo fek
6	गोला फेंक	Shot put	गोळा फेक / Gola fek
7	तलवारबाजी	Fencing	दांडपट्यो खेल / dandpatyos khel
8	बांस कूद	Pole Vault	पोल वॉल्ट / pole Valut
9	लम्बी कूद	Long - jump	ऊंच उडी / Unch Udi
10	हॉकी	Hokey	हॉकी / Hocky
11	गोल्फ	Golf	गोल्फ / Golf
12	टेनिस	Tennis	टेनिस / Tennis
13	कुश्ती	Wrestling	कुस्ती / kusti
14	पोलो	Polo	पोलो / Polo
15	भारोत्तलन	Weight Lifting	वजन उखलपाची सर्त / vajan ukhalpachi sart
16	शतरंग	Chess	बुद्धीबळ / Buddhibal
17	कैरम	Carom	कैरम / Carom
18	क्रिकेट	Cricket	क्रिकेट / Cricket
19	खो खो	KhoKho	खो खो / Kho Kho
20	टेबल टेनिस	Table Tennis	टेबल टेनिस / Table tennis
21	गिल्ली डन्डा	GilliDanda	विटीदांडो / Vitidando
22	बास्केटबाल	Basket Ball	बास्केटबाल - Basketball
23	कबडडी	Kabaddi	कबडडी / Kabaddi

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

कार्यालयीन वस्तु Office Items

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	कलम,पेन	PEN	लिखणी / likhni
2	कागज	PAPER	कागद / kagad
3	स्याही	INK	शाई / shai
4	रबड़	RUBBER	खोडरबर / khodruber
5	रजत पट	White Board	धवि पाटी / dhavi pati
6	पुस्तक	BOOK	पुस्तक / pustak
7	पंजी / पंजिका	REGISTER	नोंदचोपडी / nondchopdi
8	पैमाना	SCALE	पट्टी / patti
9	अभ्यास पुस्तिका	COPY	अभ्यास पुस्तक / Abhyas pustak
10	कैंची	SCISSOR	कातर / katar
11	सभागार	Conference Hall	सभाघर / sabhaghar
12	लेखन पैड	WRITING PAD	लिखाण चोपडी / likhan chopdi
13	दूरभाष यंत्र	TELEPHONE	दूरध्वनी / Duradhvani
14	संदर्शन पत्र	VISITING CARD	भेटकार्ड / bhetcard
15	गोंद	GUM BOTTLE	दिखाचि बाटली / dikhachi batli
16	मुहर	STAMP	छाप / Chhap
17	गणक यंत्र	CALCULATER	गणकयंत्र / Ganakayantr
18	लिफ़ाफ़ा	ENVELOPES	पाकीट / pakit
19	रबड़ का छल्ला	RUBBER BAND	रबरबैंड / rubberband
20	सूचना पटल	NOTICE BOARD	सुचोवणी फळो / suchavni falo
21	उपस्थिति पत्र	MUSTER ROLL	हजेरी पुस्तक / hajeri pustak
22	संगणक	COMPUTER	संगणक / Sanganak
23	कुंजी पटल	KEYBOARD	कीबोर्ड / Keyboard
24	मुद्रण यंत्र	PRINTER	छापपी / chapapi
25	नाम पट्ट	Name Board	नाव पाटी / naav pati

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

समय-सूचक शब्द Time Related Words

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	पल	Moment	खीण / Khin
2	सेकेंड	second	सेकंड / second
3	मिनट	Minute	मिनीट / minit
4	घंटा	Hour	वर / Var
5	सुबह	Morning	सकाळ / sakal
6	दोपहर	Afternoon	दोपार / dompar
7	संध्या / सायं / शाम	evening	सांचेर / saancher
8	रात	Night	रात / raat
9	दिन	Day	दिस / dis
10	रोज / दैनिक	Daily	सद्दी / saddi
11	आज	Today	आयज / aayj
12	कल/बीता हुआ कल	yesterday	काल / kaal
13	कल /आने वाला	Tomorrow	फाल्या / falya
14	परसों / बीता हुआ	Day before yesterday	पैर / pair
15	परसों /आने वाला	Day After Tomorrow	परवा / parva
16	सप्ताह	Week	सुमान / suman
17	पखवाडा	fortnight	पंदरवडो / pandarvado
18	मास/ माह / महिना	month	म्हयनो / mhayno
19	तिमाही	quarterly	तीनमाही Tinmahi
20	छमाही	half yearly	अर्धवार्षिक / ardhvarshik
21	वार्षिक	Yearly	वसविळीचें / varsavaliche
22	वर्ष/साल	Year / Annum	वर्स / Vars
23	दशक / दस साल	Decade / Ten years	दशक / dashak
24	शताब्दी/सौ साल	Centenary/hundred years	शतक / shatak
25	युग	Era / age	शक / shak
26	कब / जब	When	केन्ना / Kenna
27	तब	Then	तेन्ना / Tenna

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

पक्षी / जलचर Birds / Waterfowls

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	सारस	CRANE	बगळो / Bagulo
2	मोर	PEACOCK	मोर / Mor
3	कबूतर	PIGION	कबूतर / Kabutar
4	तोता	PARROT	पोपट / Popat
5	मैना	MYNAH	मैना / Mynah
6	कौआ	CROW	कावळो / Kavulo
7	बत्तख	DUCK	बदक / badhak
8	उल्लू	OWL	घुबड / ghubada
9	कोयल	CUCKOO	कोगूळ / Kogool
10	गौरैया	SPARROW	चिमणी / Chimmni
11	शुतरमुर्ग	OSTRICH	शहामृग / shahaamriga
12	तीतर	PARTRIDGE	तितर / Titar
13	गिद्ध	VULTURE	गीद / geeda
14	चील	EAGLE	गरूड / Garud
15	हंस	SWAN	राजहंस / Rajhans
16	चमगादड	BAT	पाखो / Pakho
17	राम चिरैया	KING FISHER	पाणकावळो / paanakaavalo
18	बगुला	Heron	बकें / Bakke
19	कछुआ	TURTLE	कांसव / Kansav
20	तारा मछली	STARFISH	नखेत्र नुस्तें / Nakhetra Nustem
21	केकडा	CRAB	कुल्ली / Kulli
22	सीप	OYSTER	कालूं / Kalua
23	झींगा मछली	LOBSTER	शिवोड कुरलो / Xivod Kurlo
24	घड़ियाल	ALIGATOR	मगर / Magar
25	ऊदबिलाव	OTTER	ऊद / Ud
26	दरियाई घोडा	HIPPOPOTOMUS	पाणघोडो / Paanghodo
27	मछली	FISH	नुस्तें / Nustem



सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

वाहन Vehicles

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	रथ	Car	गाडी / Ghadi
2	दुपहिया वाहन	Two wheeler	मोटार सायकल / Motar saikal
3	तिपहिया वाहन	Tricycle	तिचाकी / Tichaki
4	रोगी वाहन	Ambulance	रुग्णवाहिका / Rugnavahika
5	पुलिस वाहन	Police Van	पुलीस गाडी / Pulis Ghadi
6	हवाई जहाज	Aeroplane	विमान / Viman
7	मालगाडी	Goods Train	म्हालगाडी / Mhalghadi
8	खोदक यंत्र	Excavator	उत्खनक / Utkhanak
9	कचरे का ट्रक	Dump Truck	कोयराची ट्रक / Koirachi Truck
10	आपूर्ति वाहन	Delivery Van	देवघेव गाडी / DhevGhev Ghadi
11	जल वाहक वाहन	Water Tanker	उदक वरपाचे गाडी / Udak Varpache Gaadi
12	जलयान	Ship	जहाज़ / Jahaj
13	पनडुब्बी	Submarine	पनडुब्बी / Pandubbi
14	पालनौका	Sailboat	पालजहाज / Paljahaj
15	भूमिगत रेल	Subway Rail	सुरंगपथ रेल / Surangpath rel
16	नाव	Boat	तारूं / Taaroon
17	नौका	Yacht	व्हडें / Vhadem
18	डोंगी	Canoe	होडी / Hodi
19	दमकल गाडी	Fire Brigade	अग्निशमन गाडी / Agnishaman gaadi
20	बैल गाडी	Bullock Cart	बैलगाडी / Bailghadi
21	ठेला	Trolley	ढकलगाडी / Dakalghadi
22	तांगा	Tonga	टांगा / Tanga

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

रिश्ते नाते Relations

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	माँ	Mother	आवय / Aavay
2	पिता	Father	बापूय / Bapuy
3	भाई	Brother	भाव / Bhav
4	बहन	Sister	भयण / Bhayan
5	दादा	Grandfather	आजो / Aajo
6	दादी	Grandmother	आजी / Aaji
7	चाचा	Uncle	काका / Kaka
8	चाची	Aunty	काकी / Kaki
9	पुत्र, बेटा	Son	पूत / Poot
10	पुत्री, बेटी	Daughter	चली / Chali
11	प्रपौत्र, पोता, नाती	Grandson	नातू / Natu
12	प्रपौत्री, पोती, नातिन	Granddaughter	नात / Nat
13	भतीजा	Nephew	भाचो / Bhacho
14	भतीजी	Niece	भाची / Bhachi
15	भांजा	Nephew	पुतणयो/ Putnyo
16	भांजी	Niece	पुतणी / Putani
17	बुआ	Aunty	मावशी/ Mavsi
18	फूफा	Uncle	मावसो / Mavso
19	नाना	Grandfather	आजो / Aajo
20	नानी	Grandmother	आजी / Aaji
21	मामा	Maternal Uncle	मामा / Mama
22	मामी	Maternal Aunt	मामी / Mami
23	मौसी	Aunty	मावशी/ Mavsi
24	मौसा	Uncle	मावसो / Mavso
25	सास	Mother in law	सांसू / Sansu
26	ससुर	Father in law	सासरो / Sasaro
27	साला	Brother in law	मेवणो / Mevno
28	साली	Sister in law	मेवणी / Mevni
29	पत्नी	Wife	बायल / Bayal
30	पति	Husband	घोव / Ghov

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

रिश्ते नाते Relations

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	ननद	Sister in law	नणंद / Nanand
2	देवर	Brother in law	देर / Dher
3	भाभी	Sister in law	व्हनी / Vhani
4	पति	Husband	घोव / Ghov
5	पत्नी	Wife	बायल / Bayal
6	जीजा	Brother in law	भावोजी / Bhavoji
7	दामाद	Son In Law	जांवय / janvay
8	ताई	Aunty	आतें / Aatem
9	ताऊ	Uncle	काका / Kaka
10	पुत्रवधू, बहु	Daughter In Law	सून / Soon
11	साडू	Co brother	साडू / Saadu
12	जुडवा	Twins	जुळें / Julem
13	चचेरा भाई	Cousin brother	चुलत भाव / chulat bhav
14	चचेरी बहन	Cousin Sister	चुलत भयण / chulat bhain
15	ममेरा भाई	Cousin brother	चुलत भाव / chulat bhav
16	ममेरी बहन	Cousin Sister	चुलत भयण / chulat bhain
17	मौसेरा भाई	Cousin brother	चुलत भाव / chulat bhav
18	मौसेरी बहन	Cousin Sister	चुलत भयण / chulat bhain
19	फुफेरा भाई	Cousin brother	चुलत भाव / chulat bhav
20	फुफेरी बहन	Cousin Sister	चुलत भयण / chulat bhain
21	सौतेला भाई	Step Brother	सवत भाव / savat bhav
22	सौतेली बहन	Step Sister	सवत भयण / savat bhain
23	सौतेली माँ	Step Mother	सवत आवय / savat aavay
24	सौतेला पिता	Step Father	सवत बापूय / savat bapuy
25	दत्तक पुत्र	Adopted Son	पोसको चलो / posko chalo
26	दत्तक पुत्री	Adopted Daughter	पोसको चली / posko chali

# सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

## कार्यालय Offices

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	केंद्रीय कार्यालय	Central Office	केंद्रीय कार्यालय / Kendriya Karyalay
2	आंचलिक कार्यालय	Zonal Office	प्रभागिय कार्यालय / prabhagiy karyalay
3	क्षेत्रीय कार्यालय	Regional Office	प्रादेशीक कार्यालय /pradeshik karyalay
4	शाखा कार्यालय	Branch Office	शाखा कार्यालय / shakha karyalay
5	आंचलिक लेखापरीक्षा कार्यालय	Zonal Audit Office	प्रभागिय अंकेक्षण कार्यालय / prabhagiy anekshan karyalay
6	गैर-व्यावसायिक कार्यालय	Non Business Office	अवेवसायीक कार्यालय / Avevasayik karyalay
7	प्रशिक्षण महाविद्यालय	Training College	प्रशिक्षण महाविद्यालय / Prasikshan mahavidyalay
8	ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र	Centre for Learning and Development	शिक्षण आणि विकास केंद्र / Sikshan ani vikas kendra
9	सचिवालय	Secretariat	सचिवालय / Sachivalay
10	नगरपालिका कार्यालय	Municipal Office	नगरपालिका कार्यालय / Nagarpalika karyalay
11	केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय	Central Excise Office	केंद्रीय अबकारी कर कार्यालय / Kendriya abkari kar karyalay
12	विवाह पंजीकरण कार्यालय	Marriage Registration Office	लग्न नोंदणी कार्यालय / Lagna nondani karyalay
13	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय	Regional Transport Office	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय/ Pradeshik Parivahan Karyalay
14	केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय	Central Statistics Office	प्रादेशिक सांख्यिकी कार्यालय / Pradeshik Sankhyeki karyalay
15	जिला कोषागार	District Treasury Office	जिल्हा कोषागार कार्यालय / Jilha koshagar karyalay
16	आहरण व संवितरण कार्यालय	Drawing & Disbursing Office	आहरण आणि संवितरण कार्यालय / Aaharan ani samvitaran karyalay
17	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय	Regional Passport Office	प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय / Pradeshik Parpatr karyalay
18	भू अभिलेख और सर्वेक्षण कार्यालय	Land Records & Surveys Office	भूमी अभिलेख आणि सर्वेक्षण कार्यालय / Bhoomi abhilekh ani sarvekshan karyalay
19	डाकघर	Post Office	टपाल कार्यालय / Tapal karyalay
20	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय	Office of Comptroller and Auditor General	नियंत्रक आणि अंकेक्षण परीक्षक कार्यालय / Niyantrak ani anekshan parikshak karyalay
21	श्रमायुक्त का कार्यालय	Office of The Labour Commissioner	कामगार आयुक्त कार्यालय / Kamgar ayukt karyalay
22	निदेशालय	Directorate	संचालनालय / Sanchalanalay

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

पदनाम Designations

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	अध्यक्ष	Chairman	अध्यक्ष / Adhyaksh
2	प्रबंध निदेशक	Managing Director	वेवस्थापकी संचालक / vevasthapaki sanchalak
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	Chief Executive Officer	मुखेल कार्यकारी अधिकारी / mukhela kaaryakaaree adhikaaree
4	कार्यपालक निदेशक	Executive Director	कार्यकारी संचालक / kaaryakaaree sanchalak
5	मुख्य सतर्कता अधिकारी	Chief Vigilence Officer	मुख्य दक्षता अधिकारी / Mukhya Dakshata adhikari
6	बैंकिंग लोकपाल	Banking Ombudsman	बैंकिंग लोकपाल / Banking Lokpal
7	मुख्य वित्त अधिकारी	Chief Finance Officer	मुख्य अर्थीक अधिकारी / Mukhya arthik adhikari
8	जोखिम प्रबंधन अधिकारी	Risk Management Officer	जोखीम व्यवस्थापन अधिकारी / Jokhim vyavasthapan adhikari
9	महाप्रबन्धक	General Manager	महाव्यवस्थापक / Mahavyavasthapak
10	फील्ड महाप्रबन्धक	Field General Manager	क्षेत्र महाव्यवस्थापक / Kshetra Mahavyavasthapak
11	कंपनी सचिव	Company Secretary	कंपनी सचिव / Company sachiv
12	आंचलिक प्रबन्धक	Zonal Manager	प्रभागिय व्यवस्थापक / Prabhagiya Vyavasthapak
13	उप महाप्रबन्धक	Deputy General Manager	उप म्हावेवस्थापक / Upa Mahavyavasthapak
14	मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक	Chief Internal Auditor	मुख्य अंतर्गत अंकेक्षण अधिकारी / Mukhya antargat ankekshan adhikari
15	उप आंचलिक प्रबन्धक	Deputy Zonal Manager	उप प्रभागिय व्यवस्थापक / Upa Prabhagiya Vyavasthapak
16	प्राचार्य	Principal	मुख्याध्यापक / Mukhyadhyapak
17	क्षेत्रीय प्रबन्धक	Regional Manager	प्रादेशिक व्यवस्थापक / Pradeshik Vyavasthapak
18	सहायक महाप्रबन्धक	Asstt. General Manager	सहायक म्हावेवस्थापक / Sahayyak Mahavyavasthapak
19	उप क्षेत्रीय प्रबन्धक	Deputy Regional Manager	उप प्रादेशिक व्यवस्थापक / Upa Pradeshik Vyavasthapak
20	मुख्य प्रबन्धक	Chief Manager	मुख्य व्यवस्थापक / Mukhya Vyavasthapak
21	वरिष्ठ प्रबन्धक	Senior Manager	वरिष्ठ व्यवस्थापक / Varisht Vyavasthapak
22	संकाय प्रमुख	Feculty Leader	विद्याशाखा प्रमुख / Vidyashakha pramukh
23	प्रबन्धक	Manager	व्यवस्थापक / Vyavasthapak

# सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

## पदनाम Designations

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	सहायक प्रबन्धक	Asstt. Manager	सहायक व्यवस्थापक / Sahayak Vyavasthapak
2	उप प्रबन्धक	Deputy Manager	उप व्यवस्थापक / Upa Vyavasthapak
3	विधि अधिकारी	Law Officer	कायदो अधिकारी / Kaydo Adhikari
4	सुरक्षा अधिकारी	Security Officer	सुरक्षा अधिकारी / Surakhsa adhikari
5	जनसम्पर्क अधिकारी	Public Relation Officer	जनसंपर्क अधिकारी / Janasamparka adhikari
6	राजभाषा अधिकारी	Rajbhasha Officer	राजभाषा अधिकारी / Rajbhasha adhikari
7	वैयक्तिक सचिव	Pesonel Secretary	खाजगी सचिव / Khajgi sachiv
8	कृषि वित्त अधिकारी	Agriculture Finance Officer	शेती अर्थिक अधिकारी / Sheti arthik adhikari
9	सूचना तकनीक अधिकारी	Information Technology Officer	म्हायती तंत्रगिन्यान अधिकारी / Mahiti tantraginiyan adhikari
10	संकाय सदस्य	Feculty Member	विद्याशाखा सदस्य / Vidyashakha sadasya
11	ऋण समीक्षा अधिकारी	Loan Review Officer	रीण नियाळ अधिकारी / Rin niyal adhikari
12	वित्तीय विश्लेषक	Fincial analyst	आर्थिक मूलतत्वशोधक / Arthik mulatatvashodhak
13	वास्तुविद	Architect	वास्तु रचनाकार / Vastu Rachanakar
14	अभियंता	Engineer	अभियंतो / Abhiyanto
15	आंतरिक लेखापरीक्षक	Internal Auditor	अंतर्गत अंकेक्षण अधिकारी / Antargat ankekshan adhikari
16	व्यवसाय प्रतिनिधि	Business Correspondence	व्यापार खबराकार / vyapar khabrakar
17	विपणन अधिकारी	Marketing Officer	विपणन अधिकारी / Vipanana adhikari
18	मानव संसाधन विशेषज्ञ	Human Resource Specialist	मानव संसाधन जाणकार / Manav sansadhan jankar
19	मुख्य खजांची	Chief Cashier	मुखेल खजीनदार / mukhel khajindar
20	प्रधान खजांची	Head Cashier	मुखेल खजीनदार / mukhel khajindar
21	गणक	Tailor	शिवपी / Shinvpi
22	टंकक	Typist	टंकलेखक / tanklekhak
23	एकल खिड़की परिचालक	Single Window Operator	सिंगल विंडो ऑपरेटर/ Single Window Operator
24	लिपिक	Clerk	कारकून / karkun
25	दफ्तरी	Daftary	दफ्तरी / Daftari
26	सशस्त्र प्रहरी	Armed Guard	शस्त्र राखणदार / Shastra rakhandar
27	वाहन चालक	Driver	चालक / chalak
28	अधीनस्थ कर्मचारी	Sub Staff	उप कर्मचारी / Upa karmchari

# सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

## वाद्य यंत्र Musical Instruments

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	शंख	Conch	शंख / Shankh
2	मजीरा	Cymbal	टाळ / taal
3	ढोल या नगाडा	Drum	धोल / Dhol
4	शहनाई	Clarinet	शेनाय / shenay
5	सारंगी	Harp	विणा / Vina
6	बांसुरी	Flute	मुरली / Murli
7	डुगडुगी	Drum let	ढोलकी / Dolki
8	गिटार	Guitar	सतार / satar
9	वायलिन	Violin	वायलिन / Violin
10	पियानो	Piano	पियानो / Piano
11	डफली	Tambourine	डफ / Daf
12	हारमोनियम	Harmonium	पेटी / Peti
13	बिगुल	Bugle	बिगूल / Bigul
14	मुख वाद्य	Mouth organ	चेरमेल / chermel
15	तबला	Tabor	तबला / tabala
16	घंटा	Gong	घांट / Ghant
17	सितार	Sitar	सितार / Sitar
18	बांसुरी	Flute	मुरली / Murli
19	बैंजो	Banjo	बैंजो / Banjo
20	ढोलक	Tomtom / Dholak	ढोलके / dholke
21	मृदंग	Mrudang	मृदंग / Mrudang
22	घुँघरू	Anklet bells	पांयजणां / Paijana

सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

माप सूचक शब्द Measurement Keywords

क्रम	हिन्दी	अँग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	ग्राम	gram	ग्राम / gram
2	किलोग्राम	kilogram	किलोग्राम / kilogram
3	क्विंटल	quintal	क्विंटल / quintal
4	टन	Ton	टन/ Ton
5	मिलीमीटर	Millimeter	मिलीमीटर / Millimeter
6	सेंटीमीटर	Centimeter	सेंटीमीटर / Centimete
7	मीटर	Meter	मीटर / Meter
8	डेकामीटर	Decameter	डेकामीटर / Decameter
9	हेक्टोमीटर	Hectometer	हेक्टोमीटर / Hectometer
10	किलोमीटर	Kilometer	किलोमीटर / Kilometer
11	गज	Yard	गज / gaj
12	एकड	Acre	एकर / ekar
13	मील	Mile	कोस / Kos
14	समुद्री मील	Nautical Miles	नाविकांचें कोस / Navikanche Kos
15	फीट	Feet	फीट / feet
16	मील	Mile	कोस / Kos
17	फर्लांग	Furlong	फर्लांग / furlong
18	लीटर	Liter	लीटर / Liter
19	मिलीलीटर	Milliliter	मिलीलीटर / Milliliter



## सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

### रेलवे स्टेशन पर संवाद. Conversation at Railway Station

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	यात्री- कृपया मुंबई जाने वाली ट्रेन की क्या स्थिति बताएं.	Passanger-What is the status of Mumbai superfast.	प्रवाशी: "मुंबई सुपरफास्ट" हाचि स्थिथि किते /Pravasi: "Mumbai superfast" hachi stithi kite
2	ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 4 घंटे की देरी से चल रही है	The train is running late by 4 hours from its scheduled time	ट्रेन सदचा वेळेपरस ४ वोरान उशिरा चलल्या/ train sadchaya veleparas 4 voran ushira chol-lya
3	यात्री- क्या गोवा की किसी ट्रेन में रिजर्वेशन मिल सकेगा.	Passanger - Will reservation available in any train to Goa.	प्रवाशी: गोइनच्या खेंच्या ट्रेन आरक्षण मेटले?/ Pravasi : Goinchay khanchayi trainin arakshan metale
4	आज की किसी भी ट्रेन में नहीं है, हाँ, कल सुबह की ट्रेन में है	Noit is not available in any train today, but available in tomorrow morning's train.	आइज खेंचाय ट्रेनिन मेळपाक ना . पूण फल्या सकाळच्या ट्रेनिन आसा / Aij khainchayi trainin melpak na. Pun falya sakalchya trainin asa.
5	दिल्ली के लिए कोई ट्रेन है क्या	Is there any train for Delhi?	दिल्ली खातिर खेंचि ट्रेन असा. / Dilli khatir khaichi train asa.
6	जी, एक ट्रेन है जो वाया भोपाल होकर जाती है.	Yes, there is a train via Bhopal.	होय. एक ट्रेन आसा भोपालच्यान वचपी / Hoi. Ek train aasa Bhopalchyan vachpi
7	महोदय, इस स्टेशन पर कोई शाकाहारी भोजनालय है.	Sir is there any vegetarian restaurant at this station.	सायब, ह्या स्टेशनाचेर शीवराक खानावळ आसा? / Saib, hya stationacher shivrakh khanaaval aasa?
8	जी, आप सीधे जाएं. थोड़ी दूर पर शाकाहारी भोजनालय है.	Yes, go straight; there is a vegetarian restaurant.	होइ. नीट वोच. मछे फुडें शीवराक खानावळ दिसतली/ Hoi. Nit voch. Mache phude shivrak khanaaval distali.
9	महोदय, बड़ौदा एक्सप्रेस कौन से प्लेटफार्म पर आएगी.	Sir, which platform will Baroda express comeat?	साइब, बरोदा एक्सप्रेस खेंच्या प्लॅटफॉर्मचेर येतली / Saib, Baroda Express, khaichya platformacher yetali?
10	यह गाड़ी प्लेटफॉर्म नम्बर अठारह पर आएगी.	This train will come at platform number eighteen.	ही ट्रेन १८ नंबर प्लॅटफॉर्मचेर येतली / Hi train 18 number platformacher yetali
11	महोदय, क्या इस स्टेशन पर कोई दवाई की दुकान है.	Sir, is there any medicine shop at this station.	सायब, ह्या स्टेशनाचेर वोखदाचे दूकान आसा / Saib, hya stationacher vokhadache dukaan aasa?
12	स्टेशन के बाहरही है.	Just outside the station.	सामकें स्टेशनच्या भायर आसा / Samke stationachya bhair aasa
13	मेरी माँ वृद्ध है, उनके लिए व्हील चेयर चाहिए.	My mother is old, I want a wheel chair for her.	माझी आवइ जानटी आसा, तिका लागून व्हील चेयर जाय/ Majhi aavai janti aasa, tika laagun wheel chair zhai
14	जी, अवश्य मिलेगी. आप इस के लिए कुली से बात कीजिये.	Yes, sure, please ask a coolie for the same.	होइ. बरे. हेच्या खातिर कुली कडे उलय / Hoi. Bare. Hechya khatir coolie kade ulay
15	हम अभी-अभी गोवा एक्सप्रेस से उतरे हैं, भूलवश हमारा एक बैग उसमें रह गया है. कृपया हमारी मदद करें;	We have just got down from Goa Express, we left one bag there by mistake. Please help us;	आमी अता गोवा एक्सप्रेसान देवल्या. चुकून आमचे एक बैग थय विसरला। उपकार करुन आमची मदद करा/ Ami ata Goa Expressaan dhevlyya. Chukun amche ek bag thoi visarla. Upkar karun amka madad kara.
16	आप स्टेशन प्रबंधक के पास जाएं, वो सहायता करेंगे.	Go to station manager immediately, he will help you.	बेगिना स्टेशन अधिकार्याकडे वोच। तोह तुमका मदद करतलो। / Begina station adhikaryaakade voch. Toh tumka madad kartalo.

## सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

### कार्यालय में स्टाफ से संवाद . Conversation with office staff

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	स्टाफ 1: नमस्कार. आपका हमारे कार्यालय में स्वागत है.	Staff 1: Hello. Welcome to our office.	कर्मचारी 1: नमस्कार. आमच्या कार्यालयान तुमका यवकार। / Karmchari 1: Namaskar. Aamchya karyaalayaan tumkaa yeukar.
2	स्टाफ 1: कृपया बैठिए.	Staff 1: Please sit down.	कर्मचारी 1: उपकार करुन बसा। / karmchari 1: Upkar karun basa.
3	स्टाफ 1: आप क्या लेना पसंद करेंगे - चाय या कॉफी.	Staff 1: What you would like to have, tea or coffee.	कर्मचारी 1: तुमि किदे घेतले, चा काय कॉफी। / karmchari 1: tumi kidhe ghetale, chaa kaay kofee
4	स्टाफ 2: मैं चाय ले लूंगा.	Staff 2: I would like tea.	कर्मचारी 2: हांव चा घेतले। / karmchari 2: Hanv Chaa ghetale.
5	स्टाफ 1: कार्यालय तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई.	Staff 1: Have you faced any problem to reach here	कर्मचारी 1: तुमका हंगा पाउपाक काय त्रास ना जाऊ नु। / karmchari 2: Tumka hanga paupak kaay tras na jau nu.
6	स्टाफ 2: जी कोई नहीं हुई.	Staff 2: No, no problem.	कर्मचारी 2: काय त्रास ना जाऊंग / karmchari 2: kaay tras na jaaung
7	स्टाफ 1: ये बहुत अच्छा हुआ.	Staff 1: That's good.	कर्मचारी 1: बरे जाले. / Karmchari 1: Bare jale.
8	स्टाफ 1: आपका परिवार कहाँ है.	Staff 1: Where is Your family	कर्मचारी 1: तुमची फामील खय असा? / Karmchari 1: Tumchi famil khai asa.
9	स्टाफ 2: वे दिल्ली में हैं.	Staff 2: They are in Delhi	कर्मचारी 2: ती दिल्लीन असा/ karmchari 2: Ti dillin aasa
10	स्टाफ 2: यहां कार्यालय में कुल कितना स्टाफ है.	Staff 2: How much staff is there in the office?	कर्मचारी 2: कार्यालयान कितले कर्मचारी असा? / karmchari 2: Karyalayan Kitle karmchari asa?
11	स्टाफ 1: यहाँ कुल 25 स्टाफ है जिसमें 15 अधिकारी, 06 लिपिक और 04 अधीनस्थ हैं.	Staff 1: Total 25 including 15 officers, 06 clerk and 04 sub staff.	कर्मचारी 1: सगळे मेलोन २५ असा। १५ अधिकारी, ६ लिपिक आणि ४ शिपाया। / Karmchari 1: Sagle melon 25 asa. 15 adhikari, 6 lipik ani 4 shipaay.
12	स्टाफ 1: गुजरात में क्या आप की ये पहली पदस्थापना है.	Staff 1: Is this your first posting in Gujarat state?	कर्मचारी: ही तुजी गुजरातान पयलि नेमणुक? / karmchari 1: Hi tuji gujaratan payli nemnuk?
13	स्टाफ 2: जी हां,	Staff 2: yes	कर्मचारी 2: होय / karmchari 2: Hoy
14	स्टाफ 1: इसके पूर्व आप कहाँ कहाँ रहे हैं.	Staff 1: Where have you been before.	कर्मचारी 1: पयलि खइ अशिल्लो। / karmchari 1: payli khai ashillo.
15	स्टाफ 2: इसके पूर्व मैं उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, में रह चुका हूँ	Staff 2: Prior to this I had been in UP, MP, West Bengal, Maharashtra	कर्मचारी 2: हेचा पयलि हांव UP, MP, वेस्ट बंगाल, आणि महाराष्ट्रा अशिल्लो। / karmchari 2: hecha payli hanv UP, MP, West Bengal, ani Maharashtra ashillo
16	स्टाफ 2: जी अब गुजरात राज्य भी इस सूची में जुड़ जाएगा.	Staff 2: Yes, now Gujarat will also be in this list.	कर्मचारी 2: अता ह्या यादीन गुजरात बिन येतले. / karmchari 2: ata hya yadeen Gujarat bin yetale.
17	स्टाफ 1: आइए मैं आपका सभी स्टाफ सदस्यों से मिलवाता हूँ.	Staff 1: Let me introduce you to all staff members.	कर्मचारी 1: यो, हांव तुका सगळ्या कर्मचार्यांची वोळख करुन दिता। / karmchari 1: yo. Hanv tuka Saglya karmcharyanchi volakh karun dita.
18	स्टाफ 2: जी, चलिए.	Staff 2: Yes, let's go	कर्मचारी 2 होय, चल या. / karmchari 2: Hoy, chal ya.

## सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

### किराने/ कपडे के विक्रेता से संवाद Conversation with Grossary/ Cloth merchant

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	दुकानदार- नमस्कार, आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ	<b>Shopkeeper-</b> Good morning, please come, may I help you	पसरकार: नमस्कार, येवकार। हांव तुमची किते मदद करू?/Pasarkar: Namaskar, yevukar. Hanv tumchi kide madad karun?
2	ग्राहक - जी मुझे बासमती चावल चाहिए.	<b>Customer-</b> Yes, I want Basmati Rice.	गिरायक: होय, मका बासमती तानुळ घेवूनग जाय। / Girayak: Hoy, maka basmati tanool ghevung jay.
3	दुकानदार- कोई विशेष ब्रांड के?	<b>Shopkeeper-</b> Any specific brand ?	पसरकार: नेमके खैचे ब्रांड? / Pasarkar: nemke khaiche brand?
4	ग्राहक- जी मुझे इंडिया गेट ब्रांड के बासमती चावल चाहिए.	<b>Customer-</b> Yes, I want India Gate Brand Basmati Rice.	गिरायक: मका इंडिया गेट ब्रांड बासमती तानुळ जाय/ Girayak:Maka India Gate Basmati tanool jay
5	दुकानदार -मिल जाएंगे.	<b>Shopkeeper-</b> You will get it.	पसरकार: मेळतले / Pasarkar: Meltale
6	ग्राहक - इनका क्या भाव है ?	<b>Customer-</b> Rate pleases	गिरायक: दर किते? / Girayak: dar kite?
7	दुकानदार- जी रू.110/- किलो.	<b>Shopkeeper-</b> Just Rs.110/ Kg	पसरकार: फकत ११० रुपया किलो. / Pasarkar: Fakat 110 rupya kilo.
8	ग्राहक- दाम कुछ कम करें.	<b>Customer-</b> Lower the price a bit	गिरायक: मात्सो दर कमी करा। / Girayak: maatso dar kami kar.
9	दुकानदार- एक ही दाम है.	<b>Shopkeeper-</b> Its fixed price	पसरकार: एकुच दर असा/ Pasarkar: ekutch dar asa.
10	ग्राहक- मुझे 1 शर्ट भी चाहिए.	<b>Customer-</b> One shirt please.	गिरायक: एक बुशट बिन जाय. / Girayak: Ek bushat bin jay.
11	दुकानदार- आप प्रथम तल पर क्लाथ सेक्शन में देख सकते है.	<b>Shopkeeper-</b> Please visit cloth section at first floor.	पसरकार: उपकार करुन, पैल्या मजल्यार कपड्याच्या भागान चला/ Pasarkar: Upkar karun, paylya majilyar kapdyachya bhagan chal.
12	ग्राहक- मुझे एक अच्छी सूती शर्ट दिखाइयें.	<b>Customer-</b> I want a good cotton shirt.	गिरायक: माका बऱ्या सूती बुशट दाखया। / Girayak: Maka darjacho suti bushat dakhay
13	दुकानदार- ये बहुत अच्छी क्वालिटी की सूती शर्ट है.	<b>Shopkeeper-</b> Sir, this a good quality Cotton Shirt	पसरकार: हो बऱ्या दर्जाचो सूती बुशट असा / Pasarkar: saib, ho barya suti bushat asa.
14	ग्राहक - ये कितने की है ?	<b>Customer-</b> Price ?	गिरायक: दर किते? / Girayak: dar kite?
15	दुकानदार- रू.3000/-	<b>Shopkeeper-</b> Rs.3000/-	पसरकार: ३००० रुपया/ Pasarkar: 3000 rupya
16	ग्राहक - कुछ कम कीजिए.	<b>Customer-</b> Any discount	गिरायक: किते सूट असा/ Girayak: kite sut asa
17	दुकानदार- आपको कुल कीमत पर 10 प्रतिशत की छूट दे देंगे.	<b>Shopkeeper-</b> We shall give you 10% discount.	पसरकार: एमी १० टक्के सुट दिता / Pasarkar: ami 10 takke sut dita
18	ग्राहक- कुल कितना हुआ?	<b>Customer-</b> How much to pay	गिरायक: कितले दिवपाचे/ Girayak: kitle divpache
19	दुकानदार- कुल रू.3250/- कैसे भुगतान करेंगे, नकद या कार्ड ?	<b>Shopkeeper-</b> Rs.3250/- How will you pay Cash or Card	पसरकार: ३२५० रुपया. कार्ड काय पोइशे दिता? / Pasarkar: 3250 rupya. Kard kay poishe dita?
20	ग्राहक- मैं कार्ड द्वारा भुगतान करूंगा.	<b>Customer-</b> I shall pay via Card.	गिरायक: हांव कार्ड दितलो/ Girayak: Hanv kard ditalo.

# सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

## सोसाईटी में संवाद. Conversation in Society

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	राघव : नमस्कार, आप कैसे है?	Raghav:Namaskar, how are you?	राघव: नमस्कार, कसो आसा ? / Raghav: Namaskar, kaso asa?
2	सचिव : नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे है?	Secretary: Namaskarsir, I am fine, how are you?	सचीव: नमस्कार, साईब, हांव बोरो असा। तुमि कशे आसा / Sachiv: Namaskar saib, hanv boro asa. Tumi kashe asa
3	राघव : सब ठीक है, आपजानते है कि मैं पत्नी की बीमारी से काफी परेशान हूँ.	Raghav: Everything is fine, you know, I am very upset with my wife's illness.	राघव: सगळे बरे असा। तू जाणा माझी बायल बरी नसता म्हणून मका अस्वस्थताय आसा / Raghav: Sagle bare asa. Tu jana majhi bayal bari nasta mhanun maka asvasthatay asa.
4	सचिव : कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?	Secretary: Tell me, how can I help you?	सचीव: सांग मका, हांव कशी मदद करू तुजी / Sachiv: Sang maka, hanv kashi madad karu tuji.
5	राघव : धन्यवाद सर, आप सोसाईटी में पार्किंग सुविधा को व्यवस्थित करा दीजिये.	Raghav: Thank you sir, let organize the parking facility in the society.	राघव: देव बरे करू साईब, आमच्या सोसाईटीन पार्किंग व्यवस्थित करा / Raghav: Dev bare karu saib, aamchya societin parking vyavasthit kara.
6	सचिव : सभी गाड़ियों की पार्किंग तय है, फिर क्या तकलीफ हुई?	Secretary: Parking is already fixed for all vehicles, then what problem did you face?	सचीव: पार्किंग पयलीच तारायलले आसा सगळ्या गाड्यांखातिर, मागीर किते त्रास जाता तुका / Sachiv: Parking paylich tharaylale asa sagalya gadyangkhatir, magir kite tras jata tuka.
7	राघव : कल पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन मेरी गाड़ी के सामने किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी थी.	Raghav: yesterday I had to go to the doctor with my wife, but a car had parked in front of my car.	राघव: काल माका बायलेक घेवन दोतोरकडे वचपाक जाय आसले, पूण कोणीतरी गाडी मज्या गाड्ये फूडयान लायलली. / Raghav: kal maaka bayalek ghevun dottorakade vachpak jay aasle, pun konitari gaadi majya gaadye fudyen laylali.
8	सचिव : तब क्या हुआ ? डॉक्टर के यहाँ गये या नहीं.	Secretary: What? Did you go to the doctor or not?	सचीव: किते? तू दोतोरक मेळो काय ना? / Sachiv: Kite? Tu dottorak melo kay na?
9	राघव : हम लोग एक घंटा देरी से डॉक्टर के यहाँ पहुँचे.	Raghav : We reached the doctor's place an hour late	राघव: अमी दोतोरकडे एक वर उशिरा पावली. / Raghav: Ami dottorakade ek var ushira pavli.
10	सचिव : ये तो दुःख की बात है	Secretary: I'm sorry.	सचीव: आयकोन दुख जाले / Sachiv: aikon dukh jaale.
11	राघव : ऐसा प्रति दिन किसी न किसी के साथ होता है.	Raghav: It happens daily to someone or the other.	राघव: अशे सद्दी कोनांग ना कोनांग जायत आसता. / Raghav: ashe saddi konang na konang jayat asta.
12	सचिव : इसका मतलब झूठी पर तैनात गार्ड ध्यान नहीं देता है.	Secretary: This means the guard is not doing duty.	सचीव: मणजे राखपी ताजे काम सारखे करीना. / Sachiv: mnje rakhpi taje kam sarke karina.
13	राघव : जी, गार्ड को ध्यान रखना चाहिए.	Raghav: Yes, the guard should take care.	राघव: होय, राखपीन सावधानताय दवरुंग जाय. / Raghav: hoy, rakhpin savdhanatay davarung jay.
14	सचिव : मैं उसे बोलता हूँ	Secretary: I will ask him.	सचीव: हांव विचारता तेका / Sachiv: Hanv vicharta teka.
15	राघव : ठीक है धन्यवाद.	Raghav: OK, thanks.	राघव: बरें, देव बरें करूं. / Raghav: Bare, dev bare karu.

## सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

### बैंक शाखा में ग्राहक से संवाद. Conversation with Customer in Branch

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	ग्राहक: मैं अंदर आ सकता हूँ?	Customer : May I come in	गिरायक: हांव भितर येव?/ Girayk: Hanv bhitar yev?
2	शाप्र : जी हां, कृपया आये	BM:Yes,Please come in.	शा व्य : होय, यो. / Sha Vya: Hoi, Yo.
3	ग्राहक : मुझे बैंक योजनाओं के बारे में जानकारी लेनी थी	Customer : I want to know about Bank's schemes	गिरायक: मका बैंकेच्या येवजनेची मायती जाय आसली / Girayk: maka bankechyaa yevjanechi mayti jay asli.
4	शाप्र : आप बचत खाता, आवर्ती खाता, एवं सावधि खाता खोल सकते हैं	BM : You may open Saving account, Time deposit &Recurring account.	शा व्य : तुमि बचत खाते, काळ जमा, आणि आवर्ती खाते उघडपाक जाता / Sha Vya: tumi bachat khate, kal jama, ani avarti khate ughadpak jata.
5	ग्राहक : एक वर्ष हेतु सावधि जमा की ब्याज दर क्या है	Customer:What is the rate of interest for one year Fdt.	गिरायक: एक वर्साखातीर काळ जमाची दर किते आसा?/ Girayk: Ek varsakhatir kal jamachi dar kite asa?
6	शाप्र : 5%वार्षिक	BM : 5% per annum.	शा व्य : ५% प्रती वर्स / Sha Vya: 5% prati vars.
7	ग्राहक : मुझे एटीएम कार्ड कैसे मिल सकता है.	Customer : How can I get an ATM card	गिरायक: मका एटीएम कार्ड कशे मेळटले? / Girayk: maka ATM kard kashi meltale?
8	शाप्र: एक फार्म भरना होगा और शाखा के माध्यम से आपको 15 दिनों में कार्ड प्राप्त होगा.	BM:Just fill a form and with in 15 days you will receive the card through branch	शा व्य : एक फॉर्म भरपाचो आणि १५ दिसान शाखेतल्यान तुका कार्ड मेळटले. / Sha Vya: Ek farm bharpacho ani 15 disan shakhetlyan tuka kard meltale.
9	ग्राहक : क्या आपके बैंक में फास्टैग उपलब्ध है.	Customer : Do you have Fastag in your Bank.	गिरायक: तुमच्या बँकेन फास्टेग आसा? / Girayk: Tumchya banken fastag aasa?
10	शाप्र : जी हां, हमारा बैंक फास्टैग जारी करता है.	BM : Yes, Fastag is issued by our Bank.	शा व्य : होय, फास्टेग आमची बँक दिता. / Sha Vya: Hoy, fastag amchi bank dita.
11	ग्राहक : मैं सरकारी कर्मचारी हूँ. मैंने 1 फ्लैट बुक किया है. क्या मुझे गृह ऋण मिल सकता है.	Customer : I am inGovt service have booked a flat. Wil lget a home loan.	गिरायक: हांव सरकारी नोक्रीन आसा. हावेन एक फ्लैट बुक केला. म्हाका रीण मेळटले? / Girayk: Hanv sarkari nokrin aasa. Haven ek flat book kela. Mhaka reen meltale?
12	शाप्र : जी मिल सकता है.	BM : Yes you can get it.	शा व्य : होय, मेळटले / Sha Vya:Hoy, meltale.
13	ग्राहक : बचत खाते में नामांकन कैसे कर सकते है	Customer:How to nominate in Saving Account	गिरायक: बचत खातेचेर नेमणुक कशी करप? / Girayk: Bachat khatecher nemanuk kashi karap?
14	शा प्र : डीए-1 फार्म भरकर नामांकन कर सकते है	BM : By filling DA-1 form nomintion can be done.	शा व्य : डीए-१ फार्म भरून नेमणुक करू जाता / Sha Vya: DA-1 farm bharun nemanuk karu jata.
15	ग्राहक: ऋण/जमा की जानकारी ऑनआइन कैसे कर सकते हैं,	Customer:How could get online informatioin regarding loan or deposit.	गिरायक: रीण/जमा बदल ऑनलाइन मायती कशी मेळटली?/ Girayk: Reen / jama badal online mayti kashi meltali?
16	शा प्र : 9223901111 पर ऋण के लिए एवं 9223502222 पर जमा के लिए पर मिस्ड कॉल दें आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी.	BM : Give missed call at 9223901111 for loan and9223502222 for deposit. You will get full information.	शा व्य : रीणखातिर 9223901111 ह्यो नंबर आणि जमाखातिर 9223502222 ह्या नम्बराचेर मिस्ड कॉल दी. तुका सगळी मायती मेळटली. / Sha Vya: rinakhatir 9223901111 hyo number ani jamakhatir 9223502222 hya numberacher missed call di. Tuka sagli mayti meltali.

# सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

## मार्केटिंग संबंधी संवाद. Conversation reg. Marketing

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	बैंकर-नमस्कार, हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हैं. मैं राजेश हूँ. और ये श्री सुरेश हैं. हम दोनों बैंक में सहायक प्रबन्धक हैं.	Banker - Hello, we are from Central Bank of India. I am Rajesh and he is Mr.Suresh. Both are working as Asstt Manager in the Bank.	बैंकर: नमस्कार, आमी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियानसून आसा. हांव राजेश आणि हो सुरेश. आमी दोगूय सहाय्यक वेवस्थापक मणुन बैंकेन काम करता./ Banker: Namaskar, aami central bank of indiyansun aasa. Hanv Rajesh ani ho Suresh. Aami dogooy sahayyak Vevasthapak mnun banken kaam karta.
2	व्यक्ति - नमस्कार, कहिए क्या काम है.	Person-Hello, what doyouwant.	मनीस: नमस्कार, किते जाय तुमका? / Manis: Namaskar, kite jay tumka?
3	बैंकर- सर, क्या हम जान सकते हैं कि आपका व्यवसाय क्या है?	Banker-Sir,may we know what your profession is?	बैंकर: साइब, तुजो वेवसाय किते? / Banker: saib, tujo vevasay kite?
4	व्यक्ति-मैं एक इंजीनियर हूँ.	Person - I am an engineer.	मनीस: हांव इंजीनियर आसा/ Manis:Hanv engineer aasa
5	बैंकर- सर, आप किस बैंक से लेन देन करते हैं ?	Banker- Sir, which bank do you deal with?	बैंकर: साइब, तुमि खैंच्या बैंकेन वेवहार करता?/ Banker: Saib,tumi khaichya banken vevhar karta?
6	व्यक्ति -टी एम बी से.	Person -From TM Bank.	मनीस:टीएम बैंकेनचान/Manis: TM Bankenchan.
7	बैंकर-सर हम अपने बैंक के कुछ नए ऑफर आपको बताना चाहेंगे	Banker-Sir, we would like to inform you some new offers launched by our bank.	बैंकर:साइब, आमी तुमका आमच्या थोड्या नविन एवजनेबद्दल मयति दिवुंग सोधता जो आमच्या बैंकेन सुरु केल्या. / Banker: Saib, ami tumka aamchya thodya navin yevjanebaddal mayti divung sodta jo aamchya banken suru kelya.
8	व्यक्ति - अच्छा,	Person - Ok,	मनीस: बरे. / Manis: Bare.
9	व्यक्ति - हाँ, बताइए.	Person - Tell me please.	मनीस: होय संग म्हाका / Manis:Hoy Sang mhaka.
10	बैंकर-अपने फेस्टिवल ऑफर में हमारा बैंक गृहऋण एवं वाहन ऋण की प्रक्रियाशुल्क में पूरी छूट प्रदान कर रहा है.	Banker-During the festival offer, our bank is offering full waiver of processing fee for Home loan and Vehicle loan.	बैंकर: सणाच्या टैमार आमच्या बैंकेन प्रस्ताव आसा जीतून घर आणि गाडीयेच्या रीणखातिर शुल्क लगता ते सगळे माफ आसा./ Banker:Sanachya timar aamchya banken prastav aasa jitun ghar aani gadyechya rinakhatir shulk lagta te sagle maaf aasa.
11	व्यक्ति - अच्छा	Person - Good	मनीस: बरे. / Manis: Bare.
12	बैंकर- सर यदि आप घर लेना चाहते है तो हमारे बैंक का यह ऑफर बेहतरीन हैं.	Banker - Sir if you are willing to buy a house thenits the best offers from our Bank.	बैंकर: साइब, जर तुमका घर घेवपाचे आसा जाल्यार हो आमच्या बैंकेतलो सगळ्यात बरो प्रस्ताव आसा. / Banker: Saib, jar tumka ghar ghevpache aasa jalyaar ho aamchya banketlo saglyat baro prastav aasa
13	व्यक्ति - हाँ, घर और कार लेने का मेरा इरादा तो हैं.	Person-Yes, I would like to buy a house & a car	मनीस: होय, मका घर आणि गाडी घेवपाची आसा. / Manis: Hoy, maka ghar aani gadi ghevpachi aasa.
14	बैंकर- सर बताना चाहेंगे कि गृह ऋण पर हमारी ब्याज दरकाफी कम है. विशेषतः महिलाओं हेतु हमारे बैंक की गृहलक्ष्मी आवास ऋण योजना है, जिसमें ब्याजदर और भी कम हैं	Banker - Sir we would like to mention that our interest rate for home loan is very low.Especially for women our bank hasGrihalaxmi home loan scheme in which interest rate is even lower.	बैंकर: आमच्या बैंकेचे घर घेवपाच्या रीणाचो दर सगळ्यान कमी आसा. मुखेलपणान, बायलांखातिर आमच्या बैंकेन गृहलक्ष्मी एवजना आसा तीतून दर खुप कमी आसा/ Banker: Amchya bankecho ghar ghevpachya rinacho dar sanglyan kami aasa. Mukhelpnan, baylankhatir aamchya banken Grihlakshmi yevjana aasa titun dar khup kami aasa.

## सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

### मार्केटिंग संबंधी संवाद. Conversation reg. Marketing

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	व्यक्ति - पर क्या इस योजना का लाभ मुझे मिल सकता है ?	Person - But may I get the benefit of this Yojana?	मनीस: मका ह्या एवजनेचो फायदो मेळटलो? / Manis: Maka hyaa yevjanecho faaydo meltalo?
2	बैंकर- सर, आप अपनी पत्नी के साथ संयुक्त रूप से इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इसमें एक लाभ यह भी है कि नियमित रूप से ऋण चुकाने पर अंतिम 3 से 5 किश्ते माफ की जाएगी.	Banker - Yes sir, you can avail the advantage of this scheme jointly with wife. Another benefit is that the last 3 to 5 installments will be waived off on regular repayment of the loan.	बैंकर: होय साइब, तुमि ह्या एवजनेचो फायदो तुमच्या बायलेक जोडून घेव शकता. आणि तीन ते पांच हफ्ते कमी जातले जर तुमि सरके रिण वेळेर भरले जाल्यार. / Banker: Hoy sayab, tumi hya yevjanecho faydo tumच्या baylek jodun ghev shakta. Aani tin te paach hafte kami jatle jar tumi sarke rin veler bharle jalyaar.
3	व्यक्ति - यह बढ़िया योजना है. इस योजना में लाभ लेने हेतु मुझे क्या करना होगा?	Person -This is a good plan.HowI have to take advantage of this scheme?	मनीस: ही येवजन बरी आसा. हाव या एवजनेचो कसो लाभ घेव शकता? / Manis: Hi yevjan bari aasa. Haav ya yevjanecho kaso laabh ghev shakta?
4	बैंकर- सबसे पहले आप हमारे बैंक में एक बचत खाता खोलिए.	Banker- First of all, open a savings account in our Bank.	बैंकर: पयलि आमच्या बँकेन जमा खाते उघडा. / Banker: Paili aamच्या banken jama khate ughda.
5	व्यक्ति - इसके लिए क्या दस्तावेज़ देने होंगे.	Person - What documents have to be given for this?	मनीस: तेच्याखातिर किते कागजपत्रा दिवची पडतली? / Manis: Techyakhatir kite kagajpatra divchi padtali?
6	बैंकर-आपको स्वयं की पहचान एवं पते के साक्ष्य केप्रमाण जैसे पैन, आधार कार्ड, बिजली बिल, राशनकार्ड आदि देने होंगे	Banker- You have to provide proof of & self-identity like PAN card, Aadhar card, Electric bill Ration card, etc.	बैंकर: तुमका ओळख पत्र आणि पत्तो आसा तोह पुरावो जशे पॅन कार्ड, आधार कार्ड, विज बिल, राशन कार्ड. / Banker: Tumka olakh patra aani patto aasa toh puravo jashe PAN card, adhaar card, vij bill, ration card.
7	व्यक्ति-ठीक है फिर गृहऋण.	Person -Ok, then home loan.	मनीस: बरे. मगीर घर रिणाखातिर. / Manis: Bare. Magir ghar rinakhatir
8	बैंकर-आपको आवेदन आईटीआर तथा मकान का कोटेशन देना है, फिर बैंक आपकी पात्रतानुसार ऋण प्रदान करेगा.	Banker- You have to give an application, ITR & house quotation then bank will provide you loan as per your eligibility.	बैंकर: तेच्याखातिर अर्ज, आईटीआर, आणि घराचे उतारो मगीर बैंक तुमच्या योग्यतेप्रमाण तुमका बेगिना रिण दीतली. / Banker: Techyakhatir arj, ITR, aani gharache utaro magir bank tumच्या योग्यतेप्रमाण tumka begina rin ditli.
9	व्यक्ति- ठीक है, मैं कल ही आपके बैंक में खाता खुलवाऊंगा.	Person - Ok, I will open an account in your bank tomorrow.	मनीस: बरे. हांव तुमच्या बँकेन फल्या खाते उघडता. / Manis: Bare. Hanv tumच्या banken falya khate ughadta
10	बैंकर-अपने बैंक के ग्राहक के रूप में आपको जोड़कर हमें बहुत प्रसन्नता है. धन्यवाद सर.	Banker -We are glad to add you as a customer of our bank. Thanks a lot.	बैंकर: आमका खुप बरे दिस्ले तुमका आमच्या बँकेचे गिरायक करपाक. देव बरे करू. / Banker: Aamka khup bare disle tumka aamच्या bankecho girayak karpak. Dev bare karu
11	व्यक्ति - इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने हेतु आपको भी धन्यवाद.	Person - Thanks to you too for giving such important information.	मनीस: तुमकाय देव बरे करू इतली उपेगी मायति दिली म्हणून. / Manis: Tumkay dev bare karu itli upegi mayti dili manun.

## सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

### फल सब्जी विक्रेता से संवाद. Conversation Fruits / Vegetables seller

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	ग्राहक- भईया आलू क्या भाव दिये हैं ?	Customer : What is the rate of Potato.	गिरायक: बटाट्याचो दर किते आसा? / Girayak: Batatyacho dar kite aasa?
2	विक्रेता- साहब बीस रुपये किलो.	Seller-Sir, 20 Rupee Kg.	विकपी: साइब, विस रुपये किलो. / Vikpi: Saib, vis rupya kilo.
3	ग्राहक- बीस रुपये? इतना	Customer : 20 Rupees? Too much	गिरायक: २० रुपया? खुप जाले / Girayak: 20 rupya? Khup jale
4	विक्रेता- साहब आज मंहगे हैं.	Seller - Sir, today it is costly.	विकपी: साइब, आयज मारक आसा/ Vikpi: Saib, aaij marak aasa
5	ग्राहक- पन्द्रह नही दोगे.	Customer : Give at 15?	गिरायक: १५ रुपयांक दी / Girayak: 15 rupyank di
6	सब्जीविक्रेता- नही साहब.	Seller -Sorry Sir.	विकपी: माफ़ कर साइब / Vikpi: Maaf kar saib
7	ग्राहक- अच्छा दो किलो दे दो?	Customer: OK, Give two Kg.	गिरायक: बरे, २ किलो दी/ Girayak: Bare. 2 kilo di
8	सब्जीविक्रेता- तोरई भी ताजी है साहब .	Seller - Sir Sponge groud is also fresh.	विकपी: साइब, घोसाळीबीन ताजी आसा. / Vikpi: Saib, ghosalibin taaji aasa.
9	ग्राहक- कैसे दी है .	Customer : Price?	गिरायक: दर किते? / Girayak: Dar kite?
10	विक्रेता-आपको 10 रुपयेकिलो .	Seller- 10Rupee Kg for you.	विकपी: १० रुपया किलो तुमच्याखातिर. / Vikpi: 10 rupya kilo tumchyakhathir
11	ग्राहक- ठीक है एक किलो दे दो. लेकिन पहले मुझे चुनने दो.	Customer: OK, Give me 1 kg. But let me choose first.	गिरायक: बरे. म्हाका १ किलो दी पूण हांव वेचुन घेतलो. / Girayak: Bare. Maka 1 kilo di pun haav vechun ghetlo
12	सब्जीविक्रेता-ताजा सेब भी देखिये साहब.	Seller -Sir, see the fresh apples also.	विकपी: साइब, ताजी आपोला आसा. / Vikpi: Saib, taji aapola aasa.
13	ग्राहक- कैसे दिये हैं.	Customer : Rate?	गिरायक: दर किते? / Girayak: Dar kite?
14	सब्जीविक्रेता -एक सौ पचास	Seller-Rs 150/-	विकपी: देडशे./ Vikpi: dhedshe
15	ग्राहक- नही भाई, मंहगे हैं.	Customer : No too costly,.	गिरायक: नका चढ मारक आसा. / Girayak: Naka chad marak aasa.
16	सब्जीविक्रेता - कितने लोगे ?	Seller-How much you want	विकपी: कितली जाय तुमका? / Vikpi: Kitli jaay tumka?



## सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

### उधारकर्ता से वसूली संबंधी संवाद. Conversation with Borrower for Recovery

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	स्टाफ - नमस्कार, आप हमारी बैंक शाखा के खातेदार है. हम आपसे मिलने आए हैं.	Staff - Hello, You are our bank Account holder. We would like to meet you	कर्मचारी: नमस्कार, तुमि आमच्या बँकेचो खाते धारक. आमी तुका मेळपाक सोदता / Karmchari: Namaskar, tumi aamchya bankecho khate dharak. Ami tuka melpak sodta.
2	ग्राहक - नमस्कार. कृपया अपने आने का उद्देश्य बताएं?	Customer - Hello. Please tell me the purpose of your visit?	गिरायक: नमस्कार, म्हाका तुमच्या मेळपाचो हेतु सांग. / Girayak: Namaskar, maka tumchya melpacho hetu saang.
3	स्टाफ- महोदय हम आपके ऋणखाते के संबंध में चर्चा करनी है.	Staff - Sir, we would like to discuss you loan account.	कर्मचारी: साइब, तुमच्या वांगडा रिण खात्याचे उलोवंग जाय. / Karmchari: Saib, tumchya vangda rin khatyache ulovng jaay
4	ग्राहक-जी, आपके बैंक में मेरा एक बचत और एक ऋण खाता है, मैं नियम से किश्त भरता हूँ.	Customer- Yes, I have a savings & a loan account in your bank and paying regular installments.	गिरायक: होय, मजो जमा आणि रिण खाते आसा आणि हाव हफते वेलेर भरता. / Girayak: Hoy, majo jama aani rin khate aasa aani haav hafte veler bharta.
5	स्टाफ - लेकिन विगत तीन माह से इस खाते में किश्तें नहीं भरी गई है तथा आपके बचत खाते में भी पर्याप्त राशि नहीं है.	Staff - But last 3 installments are unpaid in this account and your savings account is not having sufficient funds.	कर्मचारी: पूण गेल्या ३ मयन्यान हफते भरंग न आणि तुमच्या जमा खात्यान पुराय पैशे ना / Karmchari: Pun gelya 3 maynyan hafte bharung na aani tumchya jama khatyan puray paishe na
6	स्टाफ- क्या हम किश्त जमा न करने का कारण जान सकते हैं?	Staff - Can we know the reason for its non payment ?	कर्मचारी: आमका हेचे कारन काळों शकता? / Karmchari: Aamka heche karan kalo shakta?
7	ग्राहक -जीहां. विगत तीन माह से मुझे आधा ही वेतन प्राप्त हुआ है जिसके कारण मैं इन्हें समय पर नहीं चुका पाया हूँ.	Customer - Yes, for last 3 months, I am getting just half salary so the same was not paid on time.	गिरायक: होय. गेल्या ३ मयन्यांग म्हाका अर्दो पगार मेळता, म्हणून हफतो वेलेर भरंग जावंग ना. / Girayak: Hoy. Gelya 3 maynyang maka ardo pagar melta mhanun hafto veler bharung jaung na
8	स्टाफ - हमें इसका दुख है.	Staff - Sorry for it.	कर्मचारी: चुरचुरे दिस्ले ऐकोन. / Karmchari: Churchure disle aikon.
9	ग्राहक -महोदय, महामारी के कारण हमारी कंपनी लाभ नहीं कमा रही है अतः मालिक ने हमसे से आधे वेतन पर कार्य करने का आग्रह किया है.	Customer - Sir, due to pandemic, our company is not earning profit, so the owner has urged us to work on half salary.	गिरायक: साइब, महामारी खातिर, आमची कम्पनीक फायदों जायना म्हणून मालकान आमका विनवणी केलि अर्द्य पगाराचेर काम करपाक. / Girayak: Saib, mahamari khatir, aamchi companyk faydo jayna mhanun maalkan aamka vinavni keli ardy pagarachar kaam karpak
10	ग्राहक -कंपनी मालिक का कहना है कि जैसे ही महामारी का प्रभाव कम होगा, हम सभी कर्मचारियों को एरियर्स के साथ पूरा वेतन मिल जाएगा.	Customer - The owner says that as soon as the impact of the epidemic will reduce, all employees will get full salary with Arrears	गिरायक: मालकान सांगला, बेगिनाच महामारीचो परिणाम कमी जातलो आणि सगळ्या कामगारांग थकबाकिसकट पुराय पगार मेळटलो. / Girayak: Malakaan sangla, beginach mahamaricho parinam kami jatlo aani saglya kaamgarang thakbakisakat puraay pagar meltalo.

## सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

### ग्राहक के घर वसूली कार्य संबंधी संवाद. Conversation with borrower for recovery

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	स्टाफ - क्या आप आज अतिदेय किश्त की अदायगी करने की स्थिति में हैं.	Staff - Are you in a position to repay the overdue installment today.	कर्मचारी: साइब, तुमि रिण भरपाच्या स्तितिन आसा? / Karmchari: Saib, tumi rin bharpachya stitin aasa?
2	ग्राहक -यह कष्टकारी समय है तथापि मैं अपने रिश्तेदारों की मदद से अतिदेय किश्त देने का प्रयास करता हूँ.	Customer -It is a painful time, however, I try to pay overdue installment with the help of my relatives.	गिरायक: खुप त्रासाचे दिस आसा. तरी पूण हाव सोइरांच्या मदत घेवन भरपाक प्रयत्न करता. / Girayak: Khup trasache dis aasa. Tari pun haav soiranच्या मदत घेवन bharpak prayatn karta.
3	स्टाफ-यह बताना हमारा कर्तव्य है कि यदि आपका ऋण खाता एनपीए हो जाता है तो आपको भविष्य में वित्तीय संस्थानों से ऋण मिलना संभव नहीं होगा .	Staff- It is our duty to inform that if loan account becomes NPA then it will not be possible to get a loan from financial institutions in future.	कर्मचारी: तुमचे रिण एनपीए जाले जलयार तुमका फुडे वित्तीय संस्थेकडल्यान रिण मेलचे ना, हे सांगप आमचे कर्तव्य आसा/ Karmchari: Tumche rin NPA jale jalyar tumka fude vittiy sansthekadlyan rin melche na, he sangap aamche kartavya aasa.
4	स्टाफ - इसके अलावा आपके बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु बैंक ऋण मिलने में कठिनाई होगी जिससे उनका भविष्य खराब होने की आशंका बनी रहेगी .	Staff-Further, your children will face difficulty to get bank loans for higher education, due to which there will be a fear of their future being spoiled.	कर्मचारी: फुडे तुमच्या भुरग्यांग सुद्धा त्रास जातलो बैंकेन रिण घेवपाक तेंच्या फुडार शिकपाखातिर. जेणेकरून तेंचे भविष्य खराब जाव शकता. / Karmchari: Fude tumच्या bhurgyang suddha traas jatlo banken rin ghevpaक तेंच्या fudar shikpakhatir. Jenekarun tenche bhavishya kharab jav shakta
5	स्टाफ - एक और लाभदायक जानकारी देता हूँ कि यदि आप समय पर ऋण चुकाते हैं तो आप बैंक के मूल्यवान उधारकर्ता हो जाएंगे तथा भविष्य में नया ऋण देने में बैंक द्वारा आपको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी .	Staff - Another good information I have to give you that if you repay the loan timely, you will be our valuable customer and be given priority by the bank in future new loans.	कर्मचारी: बरी गजाल ही आसा, जर रिण वेळेर भरले जाल्यार तुमि आमच्या बैंकेचे मोलाचे गिरायक अस्तले आणि तुमका पायलो मान मेलटलो फुडार रीणाखातिर. / Karmchari: Bari gajal hi aasa, jar rin veler bharle jalyaar tumi aamच्या bankeचे molache girayak aastale aani tumka paylo maan meltalo fudar rinakhatir
6	ग्राहक-महोदय आपका मार्गदर्शन अत्यंत शिक्षाप्रद है. मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा ऋण खाता कभी भी खराब नहीं होगा .	Customer - Sir Your guidance is very usefull. I assure you that my loan account will never be bad.	गिरायक: साइब, तुमि सांगले ती मायती गरजेची आसा. हांव खात्री दिता की मजे रिण केन्नाच खराब जावचे ना. / Girayak: Saib, tumi sangle ti mayti garjechi aasa. Haanv khatri dita ki maje rin kennach kharab jaavche na
7	स्टाफ -हार्दिक आभार. हमारे आने का उद्देश्य सफल रहा. कृपया ऋण अदायगी संबंधी जानकारी को आगे भी फैलाएं.	Staff -Thnka a lot. The purpose of our visit was successful. Please spread the loan payment information even further.	कर्मचारी: देव बरे करू. आमच्या भेटीचो उद्देश्य यशस्वी जालो. उपकार करूँ रिण भरपाची मायती फुडे पसरयात. / Karmchari: Dev bare karu. Aamच्या bheticho uddesh yashasvi jalo. Upkar karun rin bharpachi mayti fude pasrayat

## सेंट सरल भाषा ई शिक्षण Cent Saral Bhasha E-Learning

### बस अड्डे पर संवाद. Conversation at Bus Stand

क्रम	हिन्दी	अंग्रेजी	कोंकणी
			कोंकणी / देवनागरी लिपि / रोमन लिपि
1	व्यक्ति -दिल्ली की बस कितने बजे जायेगी?	Person -At what time will the Delhi bus leave?	मनीस: दिल्ली ची बस कितल्यांग आसा? / Manees: Dilli chi bus kitlyang aasa?
2	कर्मचारी -दिल्ली की बस 7 बजे जायेगी.	Employee - The Delhi bus will leave at 7.00 o'clock.	कर्मचारी: दिल्लीची बस सातांग सुट ता. / Karmchari: Dillichhi bus saatang sut ta
3	व्यक्ति -यहाँ सेदिल्ली का किरायाकितना है?	Person - What is the fare from here to Delhi?	मनीस: हांगासून दिल्ली वचपाक कितले लागता? / Manees: Haangasun Dilli vachpak kitle laagta?
4	कर्मचारी -सत्तर रुपये है.	Employee- Seventy rupees	कर्मचारी: सत्तर रुपया. / Karmchari: Sattar rupya
5	व्यक्ति -दिल्ली पहुँचने में कितना समय लगेगा ?	Person - How long will it take to reach Delhi?	मनीस: कितलो वेळ लगतलो दिल्ली पावपाक? / Manees: Kitlo vel lagtlo Dilli paavpak?
6	कर्मचारी -दो घंटे लगेगे.	Employee - Two hours.	कर्मचारी: दोन वरां / Karmchar: Don vara.
7	व्यक्ति - स्टेशनके लिए कौन से नंबर की बस जाएगी?	Person - Which number bus will go to the Station?	मनीस: कितल्या आकड्याची बस स्टेशनार वैतली? / Manees: Kitlya aakdyachi bus stationaar vaitli?
8	कर्मचारी -स्टेशनके लिए 112 नंबर की बस जाएगी.	Employee - Number 112 bus will go to the Station.	कर्मचारी: आकडो ११२ ची बस स्टेशनार वैतली. / Karmchari: Aakdo 112 chi bus stationaar vaitli
9	व्यक्ति -दिल्ली के लिए स्लीपर बस कितने बजे जाती है. ?	Person- At what time does sleeper bus leave to Delhi?	मनीस: दिल्ली वचपाक स्लीपर बस केन्ना सुट ता? / Manees: Dilli vachpak sleeper bus kenna sut ta?
10	कर्मचारी -दिल्ली के लिए स्लीपर बस 8 बजे जाती है.	Employee - Sleeper bus to Delhi leaves at 8 o'clock.	कर्मचारी: दिल्ली वचपाक स्लीपर बस आठांग सुट ता. / Karmchari: Dilli vachpak sleeper bus aathang sut ta
11	व्यक्ति- क्या ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है?	Person - Is online booking facility available?	मनीस: ऑनलाइन नोंद करपाची सुविधा आसा? / Manees: Online nond karpachi suvidha aasa?
12	कर्मचारी -ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है.	Employee - Yes online booking facility is available	कर्मचारी: होय. ऑनलाइन नोंद करपाची सुविधा आसा. / Karmchari: Hoy. Online nond karpachi suvidha aasa
13	व्यक्ति - समय सारणी कहाँ पर लगी हुई है?	Person - Where is the time table displayed?	मनीस: वेळपत्रक खय लायला? / Manees: Velapatrak khay laaylaa?
14	कर्मचारी -समय सारणी ठीक आपके पीछे लगी हुई है.	Employee -Time table is displayed behind you.	कर्मचारी: वेळपत्रक तुज्या फाटल्यान लायला. / Karmchari: Velapatrak tujyaa faatlyaan laayla
15	व्यक्ति - क्या मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है?	Person - Is monthly pass facility available?	मनीस: मयन्याचो पास काडपाक सुविधा आसा? / Manees: Maynyaacho paas kaadpak suvidha aasa?
16	कर्मचारी - जी हाँ, मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है.	Employee-Yes, monthly pass facility is available.	कर्मचारी: होय. मयन्याचो पास काडपाक सुविधा आसा / Karmchari: Hoy. Maynyaacho paasachi suvidha aasa.

\*\*\*